AVON MERCANTILE LIMITED

Date: 16.05.2025

То

The Listing Manager, Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001

<u>Sub: Newspaper publication of Audited financial results under Regulation 47 of the SEBI</u> (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Scrip Code: 512265

Dear Sir,

With reference to the captioned subject, we would like to inform you that in accordance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published its Audited financial results for the quarter and year ended on 31st March, 2025 in editions of Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers on 16th May, 2025.

We are enclosing herewith a copy of each of the aforesaid newspaper publications.

Thanking You

For Avon Mercantile Limited

Disha Soni Company Secretary & Compliance Officer M. No.: A42944

Website: avonmercantile.co.in

avonsecretarial@gmail.com

Ph: 0120-3355131, 3859000

CIN L17118UP1985PLC026582

Upper Basement, Smart Bharat Mall, Plot No. I-2, Sector-25A, Gautam Buddha Nagar, Noida-201301 (U.P.)

जनसता

दिनांक 16.05.2025 वित्रम लखनऊ

16 मई, 2025

|--|

रिटेल एसेट्स सेन्टरः प्रथम तल, जी-4/5 बी सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उ०प्र0-226010 रजिस्टर्ड ऑफिसः "त्रिशूल"—तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद—380006 जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। निम्न वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक कब्जा ले लिया है। निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि निम्न सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा निम्न सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह—ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार(रो)ं / गारन्टर(रों) के नाम एवं पता	बंधक / प्रभारित सम्पत्ति(यों) का विवरण	मांग सूचना नोटिस की तिथि	सांकेतिक कब्जा नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनु सार बकाया राशि
पता—1. 1087 मोहल्ला कल्याण सिंह निकट झब्बार मण्डी, मवाना कला, मेरठ, उत्तर प्रदेश— 250401, पता—2. मै० जय कृष्णा इण्टरप्राइजेज, 1087 मोहल्ला कल्याण सिंह निकट झब्बार मण्डी, मवाना कला, मेरठ, उत्तर प्रदेश—250401,	वर्तमान निर्मित सम्पत्ति नगर पालिका नं० 1088, सम्पत्ति नं0 1089,88, एवं 87 का भाग, स्थित मोहल्ला कल्याण सिंह करूबा, मवाना कला, परगना— हस्तिनापुर, तहसील—मवाना, जिला—मेरठ, उत्तर प्रदेश, एरिया—115.062 वर्ग मी०, सम्पत्ति अतुल जैन के नाम, चौहद्दी —पूरब—रोड, पश्चिम—विनीत का मकान, उत्तर—योगेश का मकान, दक्षिण—मूर्ति देवी का मकान		15.05.2025	रू0 68,94,181.00 दि. 05.11.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
अग्रवाल, पता—1. मकान [ॅ] नं० ३९ कावेरी कुंज फेस—2, कमला नगर, दयालबाग किरावली आगरा,उ0प्र0—282005, पता—2. मै० बॉबी स्टोन कम्पनी, ३8—ए / 464 सेवला जाट ग्वालियर रोड,		11.202	15.05.2025	रू0 63,21,285.00 & 64,871.00 दि. 28.11.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
दिनांकः 16.05.2025		प्राधिकृ	त अधि	कारी, एक्सिस बैंक लि0

सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड C+NTRUM र एवं पंजीकृत कार्यालयः यूनिट क्रमांक 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग,

कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098, सीआईएन क्रमांक U65922MH2016PLC273826

कब्जे का नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमन, 2002 के नियम 8(1) एवं 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि. निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता / गारंटर(ओं) को नीचे उल्लिखित कंपनी को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस(सों) जारी किया जाता है।

उधारकर्ता द्वारा राशि चकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता / गारंटर(ओं) और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 8 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति के लेनदेन करने न के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए नीचे उल्लिखित राशि के साथ ब्याज प्रभार के अधीन होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

मांग नोटिस की तिथि और कब्जा लेने की उधारकर्ता(ओं) / सह— प्रतिभूति परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण क्र. उधारकर्ता(ओं)का কুল ৰকাযা रাशি (रু.) নিথি सं. नाम/ऋण खाता संख्या

केनरा बैंक 🚽 🗛 Canara Bank, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तरी दिल्ली, डीपी 10–11, द्वितीय तल स्थानीय शॉपिंग सेंटर, विपक्ष. मौर्य एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली, 110034

वित्तीय आस्तियों के प्रतिमूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिमुतिष्ठित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत सूचना जारी की जाती है।

केनरा बैंक, से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तुत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पजीकृत डाक पावती सहित / स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी हैं । मांग सूचना निम्नांकित दिसांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था कि आपके दास सचना में दर्शायी सशी 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो बैंक / सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर बताए गए आपके दायित्व का निर्वहन न करने की स्थिति में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दिए गए किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बकाया शशि का विवरण निम्नानुसार है:--

क्र. स.	शाखा का नाम कर्जवार/गारन्टर के नाम एवं एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण	शीर्षक धारक का नाम
()	केशवपुरम शाखा श्री बब्बन उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय श्री राम आग्रय उपाध्याय, एलआईजी फ्लैट नंबर 1148, चौथी मंजिल पॉकेट ए, ब्लॉक बी लक्नायकपुरम, बक्करवाला, नई दिल्ली–110041 श्रीमती इंदु उपाध्याय पत्नी श्री बब्बन उपाध्याय, एलआईजी फ्लैट नंबर 1148, चौथी मंजिल पॉकेट ए, ब्लॉक बी लंकायक पुरम, बक्करवाला, नई दिल्ली–110041 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 01.05.2025	लाख सलामढे हजार मौ	अचल फ्रीहोल्ड डीडीए निर्मित एलआईजी फ्लैट नंबर 1148, चौथी मंजिल, पॉकेट—ए, ब्लॉक—बी, लोक नायक पुरम, बक्करवाला, नई दिल्ली—110041 में स्थित है। संपत्ति का कुल कवर्ड एरिया: 42.00 वर्ग मीटर CERSAIASSET ID:200012599476	श्री बब्बन उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय श्री राम आश्रय उपाध्याय और श्रीमती इंदु उपाध्याय पत्नी श्री बब्बन उपाध्याय
दर्श	1 वर्णित उधारकर्ता / मारंटरों को सलाह है कि (1) ऑ यी गयी बकाया राशि व्याज एवं खर्च आदि सहित मांग वाही से बच सकें।	धेक एवं विस्तृत जानकारी के 1 सूथना की दिनांक के 60 f	लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त व देनों के भीतर जमा करें ताकि सरफंसी आ	रू लें (2) मांग सूचना में वेनियम के तहत अग्निम

दिनांक : 14.05.2025, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

एवोन मर्केटाइल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ऊपरी बेसमेंट, स्मार्ट भारत मॉल, भूखंड सं. । -2, सेक्टर-25ए, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301, भारत; सीआईएन : L17118UP1985PLC026582

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाओं का विवरण

Public Notice प्ररूप संख्या आईएनसी-26 [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण मे] कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, एक राज्य से दुसरे राज्य में स्वानांतरित करने के लिए समाचार पत में प्रवाहित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार के समझ प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 🖬 धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में और

मत्त्रीता फाउंडेशन जिसका पंजीकृत कार्यलय 529डी/1051, राजीव नगर, कल्याप्पपुर, लखनऊ, उत्तर प्रतेश, भारत, 226022 चित है, के मामले में ..याचिकाकत

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी आर्थिनेपण, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कर्व्यालय "उतार प्रदेश" से "हरयाणा राज्य" में स्थानानरित करने के लिए तारीख 22 अप्रैस 2025 को अवयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित वित्रोध संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम झापन में संशोधन की पॉए की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत जापालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमाचित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक रिकि यह प्रस्थ फाइल कर MCA-21 जेटेन (www.mca.gov.in) ने जिन्हायन वर्ज कर सकता है या एक शपथ पन जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके निरोध का कारण उल्लिसित हो के साथ अपनी आपनि प्रावेशिक निवेशक को इस सूचना के प्रकाशन 🖬 तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 लिंग, दुसरा फलोर, प. दीनदयाल अंतोदया भवन, सीजीओ कार्यलेखा, नई हिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हूँ या सुपूर्व कर सकते 🖁 और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखिल पंजीकृत कर्वालय पते पर भी भेजेंगे

कृते एव हित
मल्लेला फाउंडेशन
Sd\-
खीम सिंह
हायरेकटर (DIN - 07531574)

सार्वजनिक सुचना

(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ("IBC") की धारा 102 के तहत)

सुश्री राजप्रीत कौर गुलाटी के लेनदारों के व्यानार्थ हेतू

एतदवारा सचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानन न्यायाधिकरण, प्रयान पीठ, नई दिल्ली ने IA (IBC) 174/PB/2025 में CP (IB) संख्या 475/PB/2024 में सुश्री राजप्रीत कौर गलाटी हारा IBC की धारा 94 के तहत दायर मामले में, दिनांक 13.05.2025 के अपने आदेश के माध्यम से सुझी राजप्रीत कौर गुलाटी के विरुद्ध IBC की धारा 100 के तहत विवालियेपन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है, जो मेसर्स कॉमेक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (CD) की व्यक्तिगत गारंटर हैं। माननीय AA आदेश दिनांक 20.11.2024 द्वारा श्री सुघीर कुमार अग्रवाल को समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया था। तदनुसार, सुश्री राजप्रीत कौर गुलाटी के लेनदारों को आमंत्रित किया जाता है कि वे अपने दावे निर्धारित फॉर्म बी में प्रमाण के साथ 06.06.2025 तक या उससे पहले समाधान पैशेवर के पास 416 नौरंग, हाउस, 21, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001 के पते पर या ईमेल ska003@gmail.com के माध्यम से प्रस्तुत करें।

लेनदार इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, या हाथ से, या पंजीकृत ठाक द्वारा, या स्पीठ पोस्ट से, या कुरियर के माध्यम से अपने दावों का विवरण प्रस्तुत (पंजीकरण) कर सकते हैं।

					- Y	(જ. ભાજા મ)	त्ते	अपने दावों का विवरण प्रस्तुत (पंजीकरण) क	(सकते हैं ।
		31.03.2025 को	31.12.2024 को	31.03.2024	31.03.2024 में को समाप्त				राजप्रीत कौर गुलाटी का विवरण
	विवरण	का समाप्त	का समाप्त	को पूर्ववत्ती वर्ष समाप्त	म का समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	1,	व्यक्तिगत गार्रटर का नाम	लुश्री राजग्रीत क्षेर गुलारी
		3 माह	पूर्ववत्ती 3 माह	तद्नुरूपी 3 माह			2,	0	3906, डीएलएफ फेंज-IV, गुड़गांव, 12- हरियाणा 122009
		(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित)	3.	दिवाला प्रारंभ डोने की तिथि	13.05.2025
रिचालग	नों से कुल आय	102.86	73.71	63.5			4.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को यंद करने अनम्बनित तारीख	动 08.11.2025
	तु निवल लाभ⁄(हानि) (कर, आपवादिक एवं ⁄ गसाधारण मदों से पूर्व #)	(0.95)	0.25	13.4	and the second se		5.		06.06.2025
	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं	(0.95)	0.26	13.4	14.2	5 [1.41]			रेशेवर का विवरण
	ग असाधारण मदों के उपरांत #) रांत अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक	(0.95)	0.25	13.4	14.2		6	अंतरिंग समायान पेश्रेवेर का नाम, प्रता, ई- पता और पंजीकरण क्रमांक	IBBI/IPA-001/ IP-P00195/2017-2018/10374
वं / ३	अथवा असाधारण मदों के उपरांत #)							्रांतरिय सामग्रान पेप्रेलर का पता और डेप्रेल ।	AFA Valid Till: 30.06.2025 ला पत्ताः 415 नीरंग ताउस 21, करनूरवा गांची मार्ग,
	तु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ / (हानि) रांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से]	(0.95)	.0.25	12.4	14.2	(1.41)	8.	जो समिति के पास पंजींत हो	विल्ती-110001, ईमेल- ska003@gmail.com गए प्रशाः 415 नीरंग हाउस 21, करतुरथा गांची मार्ग,
गरक्षित	ांश पूंजी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के			3	747.7	international survey of the local distance o		उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेत	दिल्ली-110001, ईमेल- ska003@gmail.com र दिवलियापन संरिता, 2016 या किसी अन्य लागू कानूनों
	क्षित तुलन—पत्र में निदर्शितानुसार ते अंश (रु. 10 / – प्रत्येक का)				-		<u>शू</u> व्य	2 या भागक पाया का अस्तुत करण पर । प्रयाणा अ वचानी के अनुसार दंडनीय है ।	રાવવાલવાયન લાદલા, 2016 યા વિલ્લા અન્ય લાગુ વગતુના
	नरत् एवं अपरिचालित परिचालनों हेतु) :	a dia dia dia dia dia dia dia dia dia di			1				सुधीर कुमार अग्रव
. मूलभू	त	(0.01)	0,00	0.1				नांकः 16.05.2025	रिजॉल्यूशन प्रोफेश
. तरली	कृत	(0.01)	.0.00	0.1	-1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		स्य	ान : नई दिल्ली	IBBI/IPA-001/ IP-P00195/2017-2018/1037
	(www.bseindia.com, www.cse-india.com) : नोएडा	पर तथा कपना के	n वबसाइट अ ध	बास् <u>(www.avor</u>	कृते एवोन म ा (दि कं	<u>5.m)</u> पर उपलब्ध केंटाइल लिमिटेड इस्ता./- शा सोनी) प्रनी सचिव ोएस 42944	नई प्रति के	ोभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभू त्ति की बिक्री के लिये ई—नीलामी बिक्री	वेशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) क
	: 15-05-2025	mec	рапта	3			सूचि के अधि सिंह दिल्	येत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचत पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका धेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पता: #18, प् ल्ली, दिल्ली—110063, (4) श्री श्यामू गुरम,	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृ ं है, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वजी ोत ग्रोवर, (3) श्री संजय ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वजी ॉकेट—III, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चि पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली—11003
	म् रत्नोव सीआईएनः रजि. कार्यालयः मेदांता मेडिक्लिनि कापोरेंट कार्यालयः मेदांता-द मे	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिपे डिसिटी, सेक्टर	लिमिटे 004PLC128 हस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम,	ड 3319 नई दिल्ली 1100 , हरियाणा 12200	1, भारत		सूचि के अधि सिंह दिल जो ब्लॉ साध पैसे	चेत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचत पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पताः #18, प ल्ली, दिल्ली–110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह–देनदार हैं,से कन कि, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह माग देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700180 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृ है, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वजी ोत ग्रोवर, (3) श्री संजय ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वजी ॉकेट—III, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चि पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली—11003 टक बैंक लिमिटेड,जनकपुरी ब्रांच, डीआईए/ए1, उ ं जनकपुरी, नई दिल्ली—110058, सुरक्षित लेनदा 0001601 के तहत 17.08.2023 से भविष्य के ब्याज (रुपये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस
	ग्लोव सीआईएनः रजि. कार्यालयः मेदांता मेडिक्लिन्	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिपे डिसिटी, सेक्टर liance@meda	लिमिटे 004PLC128 हंस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम, inta.org वे	ड 3319 नई दिल्ली 1100 , हरियाणा 12200 बसाइट: https:/ बसाइट: https:/ के के लिए का सार	n, भारत /www.meda समेकित		सूचि के अधि सिंह दिल जो ब्लॉ को साध पर आव दिल सीम आर	येत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचत पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पताः #18, प ल्ली, दिल्ली–110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह–देनदार हैं,से कन क, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह माग देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700180 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61 1 मात्र, की वसूली के लिये ''जैसी है ज 19.06.2025 को बिक्री की जायेगी संपत्ति तसीय संपत्ति फ्लैट नंबर 236, ग्राउंड फ्लोग ली, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरू पूर्व : फ्लैट नंबर 237 पश्चिम: फ्लैट रक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृ है, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वजी ति ग्रोवर, (3) श्री संजय ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वजी ॉकेट—III, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चि पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली—11003 टक बैंक लिमिटेड,जनकपुरी ब्रांच, डीआईए/ए1, ड ं जनकपुरी, नई दिल्ली—110058, सुरक्षित लेनदा 0001601 के तहत 17.08.2023 से भविष्य के ब्याज एपये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस हाँ है", ''जैसी है'', और ''जो कुछ भी है'' आधा का विवरण: जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट—प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम ज़्म ग्रोवर से संबंधित है का सभी भाग तथा हिस्सा, नंबर 235 उत्तर: गली दक्षिण: अन्य का फ्लैट ा बेची नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (बाईस
	र्ग्लोव सीआईएनः रजि. कार्यालयः मेदांता मेडिक्लि कापोरेंट कार्यालयः मेदांता-द मे दूरभाषः+91 124 483 4060 ई-मेलः comp	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिपे डिसिटी, सेक्टर liance@meda	लिमिटे 004PLC128 कंस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम, inta.org वे . और वा रिणामों क रिणामों क गत गत गत 12025 3	ट 3319 नई दिल्ली 1100 , हरियाणा 12200 बसाइटः https:/ बे के लिए का सार (ईपीएस को समाप्त तिमाही 1.03.2024 3	1, भारत /www.meda समेकित छोड़कर मिलि समाप्त वर्ष	nta.org यन रुपये में) समाप्त वर्ष 31.03.2024	सूचि के अधि सिंह दित जो ब्लॉ को शा पेसे पर आव दि सम् आर ते जम (उध आ	येत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचत पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पता: #18, प ल्ली, दिल्ली–110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह–देनदार हैं,से कन र्वक, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह माग देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700186 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61 1 मात्र, की वसूली के लिये ''जैसी है ज 19.06.2025 को बिक्री की जायेगी संपत्ति पत्ती, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरू पूर्व : फ्लैट नंबर 236, ग्राउंड फ्लोग् ली, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प वार्एरू पूर्व : फ्लैट नंबर 237 पश्चिम: फ्लैट रक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति ख रुपये मात्र) जमा की जाने वाली/जमा की लाख बीस हजार मात्र) 11 करने के लिए धरोहर राशिरूह 2,20,000.0 वारकर्ता/ बंधक कर्ता का ध्यान संपत्ति को वेनियम की धारा 13की उप–धारा (8) के प्रा	, जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट—प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम [नम ग्रोवर से संबंधित है का सभी भाग तथा हिस्सा, नंबर 235 उत्तर: गली दक्षिण: अन्य का फ्लैट 1 बेची नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (बाईस 1 जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (रुपये 0 (दो लाख बीस हजार रुपये मात्र) वेमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में वधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
द्रेनॉंक क्र. सं.	ग्लोव ग्रि ग्रि द्रि कार्यालयः मेदांता मेडिक्लि कार्पोरेंट कार्यालयः मेदांता-द मे दूरभाषः+91 124 483 4060 ई-मेलः comp 31 मार्च 2025 को सम लेखापरीक्षित	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिपे डिसिटी, सेक्टर liance@meda माप्त तिमाही त वित्तीय प समा तिम	लिमिटे 004PLC128 कंस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम, inta.org वे . और वा रिणामों क रिणामों क गत गत गत 12025 3	ट 3319 नई दिल्ली 1100 , हरियाणा 12200 बसाइट: https:/ बसाइट: https:/ की के लिए का सार (ईपीएस को समाप्त तिमाही 1.03.2024 3	1, भारत //www.meda समेकित छोड़कर मिलि समाप्त वर्ष 1.03.2025	यन रुपये में) समाप्त वर्ष	सूचि के अधि सिंह दित जो ब्लॉ के साथ पैसे पर आव दिसम आरा दो जम (उध अधि उध (उध (उध	वेत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचत पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पता: #18, प ल्ली, दिल्ली–110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह–देनदार हैं,से कन र्वक, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह माग देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700186 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61 1 मात्र, की वसूली के लिये ''जैसी है ज 19.06.2025 को बिक्री की जायेगी संपत्ति पत्नी, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरू पूर्व : फ्लैट नंबर 236, ग्राउंड फ्लोन् ली, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरू पूर्व : फ्लैट नंबर 237 पश्चिम: फ्लैट रक्षित मूल्य/ अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति ख रुपये मात्र) जमा की जाने वाली/जमा क लाख बीस हजार मात्र) 11 करने के लिए धरोहर राशिरू 2,20,000.0 वारकर्ता/ बंधक कर्ता का ध्यान संपत्ति को वेनियम की धारा 13की उप–धारा (8) के प्रा 5 सूचना प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 24 1रकर्ता/गारंटर को दी जा रही सूचना भी म	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृत है, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वजी ोत ग्रोवर, (3) श्री संजय ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वजी ॉकेट—III, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चिम पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली—110035 टक बैंक लिमिटेड,जनकपुरी ब्रांच, डीआईए/ए1, र्ड ं जनकपुरी, नई दिल्ली—110058, सुरक्षित लेनदा 0001601 के तहत 17.08.2023 से भविष्य के ब्याज (रुपये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस इं है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" आधा का विवरण: , जनता प्लैट्स,जो पॉकेट—प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम ज़म ग्रोवर से संबंधित है का सभी भाग तथा हिस्सा, नंबर 235 उत्तर: गली दक्षिण: अन्य का फ्लैट विंची नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (बाईस जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (रुपये 0 (दो लाख बीस हजार रुपये मात्र) वेमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में क्यानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 02 के नियम 8 के उप —नियम(6) के अंतर्गत नी जाएगी)
द्रग. सं.	राज्य राज्य राज. कार्यालयः मेदांता मेडिक्लि कार्पोरेंट कार्यालयः मेदांता-द मे दूरभाषः+91 124 483 4060 ई-मेलः comp 31 मार्च 2025 को सम लेखापरीक्षित	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिफे डिसिटी, सेक्टर liance@meda माप्त तिमाही त वित्तीय प समा तिम 31.03. (लेखाप	लिमिटे 004PLC128 कंस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम, inta.org वे उऔर वर्ष रिणामों क रिणामों क 1 रिथामों क 1 रिक्षित) (ले	ड 3319 नई दिल्ली 1100 , हरियाणा 12200 बसाइट: https:/ की के लिए का सार (ईपीएस को समाप्त तिमाही 1.03.2024 3 ाखापरीक्षित) (र्ह	1, भारत //www.meda रसमेकित छोड़कर मिलि समाप्त वर्ष 1.03.2025 रेखापरीक्षित)	यन रुपये में) समाप्त वर्ष 31.03.2024	सूचि के अधि सिंह सिंह दित जो ब लो को साथ पैसे पर आव दिल् सीम् आर तो जम (अधि उध जम (अधि उध ते के सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह	येत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पता: #18, प ल्ली, दिल्ली–110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह–देनदार हैं,से कन क, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह मान देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700180 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61 1 मात्र, की वसूली के लिये ''जैसी है ज 19.06.2025 को बिक्री की जायेगी संपत्ति तसीय संपत्ति फ्लैट नंबर 236, ग्राउंड फ्लोग ली, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरू पूर्व : फ्लैट नंबर 236, ग्राउंड फ्लोग ली, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरू पूर्व : फ्लैट नंबर 237 पश्चिम: फ्लैट रक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति ख रुपये मात्र) जमा की जाने वाली/जमा की लाख बीस हजार मात्र) 11 करने के लिए धरोहर राशिरू 2,20,000.0 वारकर्ता/ बंधक कर्ता का ध्यान संपत्ति को ती वेनियम की धारा 13की उप–धारा (8) के प्रा 5 सूचना प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 20 1रकर्ता/गारंटर को दी जा रही सूचना भी म नामी की विस्तृत शर्ते और नियम कर्नाटक बैंव	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृ है, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वजी ोत ग्रोवर, (3) श्री संजय ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वजी ॉकेट—III, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चि पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली—11003 टक बैंक लिमिटेड,जनकपुरी ब्रांच, डीआईए/ए1, ब ं जनकपुरी, नई दिल्ली—110058, सुरक्षित लेनदा 0001601 के तहत 17.08.2023 से भविष्य के ब्याज (रुपये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस हाँ है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" आधा का विवरण: , जनता पलैट्स,जो पॉकेट—प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम (नम ग्रोवर से संबंधित है का सभी भाग तथा हिस्सा, नंबर 235 उत्तर: गली दक्षिण: अन्य का फ्लैट ा बेची नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (बाईस् ा जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (रुपये 0 (दो लाख बीस हजार रुपये मात्र) वेमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में क्यानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 02 के नियम 8 के उप —नियम(6) के अंतर्गत नी जाएगी)
देनॉंक सं. 1 2	ग्लोव सीआईएन राज. कार्यालय: मेदांता मेडिक्लि कापोरेंट कार्यालय: मेदांता -द मे दूरभाष:+91 124 483 4060 ई-मेल: comp 31 मार्च 2025 को सर लेखापरीक्षित विवरण प्रचालनों से कुल आय अवधि हेतु निवल लाभ (कर तथा अपवा मदों से पूर्व)	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिफे डिसिटी, सेक्टर liance@meda माप्त तिमाही त वित्तीय प समा तिम 31.03. (लेखाप 9,31 दित 1,83	लिमिटे 004PLC128 कंस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम, inta.org वे 3 और वा 3 और वा 1रिणामों क 1रिणामों क 12.47 स	ट 3319 नई दिल्ली 1100 , हरियाणा 12200 बसाइट: https:/ र्व के लिए का सार (ईपीएस को समाप्त तिमाही 1.03.2024 3 क्विपरीक्षित) (र्ह 3,086.31 3	1, भारत //www.meda रसमेकित छोड़कर मिलि समाप्त वर्ष 1.03.2025 रेखापरीक्षित)	यन रुपये में) समाप्त वर्ष 31.03.2024 लेखापरीक्षित)	सूचि के अधि सिंह दित जो ॉ वि तो साध मैंसे पर आव दिम्म आर लार दो जम (अधि जि साध नीत पर वि साध मि साध मि साध सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह	येत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचत पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पता: #18, प ल्ली, दिल्ली—110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह—देनदार हैं,से कन देंक, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह माग देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700186 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61 1 मात्र, की वसूली के लिये ''जैसी है ज 19.06.2025 को बिक्री की जायेगी संपत्ति तसीय संपत्ति फ्लैट नंबर 236, ग्राउंड फ्लोन त्ली, दिल्ली—110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरू पूर्व : फ्लैट नंबर 237 पश्चिम: फ्लैट रक्षित मूल्य/ अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति ख रुपये मात्र) जमा की जाने वाली/जमा की लाख बीस हजार मात्र) ा करने के लिए धरोहर राशिरू 2,20,000.0 बारकर्ता/ बंधक कर्ता का ध्यान संपत्ति को वेनियम की धारा 13की उप—धारा (8) के प्रा रस्कर्ता/गारंटर को दी जा रही सूचना भी म तामी की विस्तृत शर्ते और नियम कर्नाटक बैंव ''बिक्री के लिये बंधक संपत्ति'' शीर्षक के अं त्तार के साथ 19.06.2025 को प्रात ps://bankauctions-in/ के माध्यम से	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृ है, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वजी ॉकेट—III, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चि पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली—11003 टक बैंक लिमिटेड,जनकपुरी ब्रांच, डीआईए/ए1, उ ं जनकपुरी, नई दिल्ली—110058, सुरक्षित लेनदा 0001601 के तहत 17.08.2023 से भविष्य के ब्याज (रुपये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस इँ है'', ''जैसी है'', और ''जो कुछ भी है'' आधा का विवरण: , जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट—प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम न्वर 235 उत्तर: गली दक्षिण: अन्य का फ्लैट ा बेची नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (बाईस्स ा जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (कपरे जा वेव नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (रुपरे जा ने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (रुपरे विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ मे वधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 02 के नियम 8 के उप —नियम(6) के अंतर्गत तर्ग जाएगी) क की वेबसाइट www-karnatakabank-com की लिंक तर्गत उपलब्ध हैं। ई—नीलामी 5 मिनट के असीमित ा 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पोर्टल आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को
द्रमाँ हम. सं. 1 2 3	ग्लोव मीआईएन रजि. कार्यालयः मेदांता मेडिक्लि कापोरेंट कार्यालयः मेदांता – द मे दूरभाषः +91 124 483 4060 ई–मेलः comp 31 मार्च 2025 को सम लेखापरीक्षित विवरण प्रचालनों से कुल आय अवधि हेतु निवल लाभ (कर तथा अपवा	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिपे डिसिटी, सेक्टर liance@meda माप्त तिमाही त वित्तीय प सम तिम 31.03. (लेखाप 9,31 दित 1,85 देत	लिमिटे 004PLC128 कंस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम, onta.org वे उऔर वर रे और वर रिणामों क 12.47 (ले 12.47 (33.34	ट 3319 नई दिल्ली 1100 हरियाणा 12200 बसाइट: https:/ र्श्व के लिए का सार (ईपीएस को समाप्त तिमाही 1.03.2024 3 खापरीक्षित) (र् 8,086.31 3 1,430.87	1, भारत /www.meda रसमेकित छोड़कर मिलि समाप्त वर्ष 1.03.2025 तेखापरीक्षित) 6,923.15	यन रुपये में) समाप्त वर्ष 31.03.2024 लेखापरीक्षित) 32,751.11	सूचि के अधि सिंह दित जो लॉ दित जो लॉ दित जो लॉ पर आव दिम्म आर हो म आर हो म आर हो म र स जि स जि स स स स स स स स स स स स स स स	येत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पता: #18, प ल्ली, दिल्ली–110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह–देनदार हैं,से कन र्क, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह माप देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700186 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61 1 मात्र, की वसूली के लिये ''जैसी है ज 19.06.2025 को बिक्री की जायेगी एंपति पत्नी, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरू पूर्व : फ्लैट नंबर 236, ग्राउंड फ्लोर ली, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प वार्एंस पूर्व : फ्लैट नंबर 237 पश्चिम: फ्लैट रक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति ख रुपये मात्र) जमा की जाने वाली/जमा की लाख बीस हजार मात्र) ता करने के लिए धरोहर राशिरूह 2,20,000.0 वारकर्ता/ बंधक कर्ता का ध्यान संपत्ति को ती वेनियम की धारा 13की उप–धारा (8) के प्रात ह सूचना प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 22 ारकर्ता/गारंटर को दी जा रही सूचना भी म नामी की विस्तृत शर्ते और नियम कर्नाटक बैंत "बिक्री के लिये बंधक संपत्ति" शीर्षक के अं त्तार के साथ 19.06.2025 को प्रात कु://bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ पर पंजीकरण कराना उए, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदरा @bankauctions-in से ई–नीलामी पर ऑ	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृ है, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वर्जी ॉकेट—III, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चि पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली—11003 टक बैंक लिमिटेड,जनकपुरी ब्रांच, डीआईए/ए1, उ ं जनकपुरी, नई दिल्ली—110058, सुरक्षित लेनद 0001601 के तहत 17.08.2023 से भविष्य के ब्याप् (रुपये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस इँ है'', ''जैसी है'', और ''जो कुछ भी है'' आध का विवरण: , जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट—प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम त्म ग्रोवर से संबंधित है का सभी भाग तथा हिस्सा नंबर 235 उत्तर: गली दक्षिण: अन्य का फ्लैट ा बेची नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (क्राइं ा जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (रुपये का विवरणदेस के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ मे विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ मे विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ मे विमोचित करने के लिए उपलब्ध तमय के सन्दर्भ मे वियानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 02 के नियम 8 के उप —नियम(6) के अंतर्गत नी जाएगी) क की वेबसाइट www-karnatakabank-com की लिंक तर्गत उपलब्ध हैं। ई—नीलामी 5 मिनट के असीमित कायोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता के होगा और यूजर आईडी तथा तथा मैसर्स 4क्लोजर बाद—500038, संपर्क : 91—8142000809, ई—मेला -
क्रा. सं. 1 2 3	ग्लोव सीआईएन रजि. कार्यालयः मेदांता मेडिक्लि कापोरेंट कार्यालयः मेदांता नेडिक्लि कापोरेंट कार्यालयः मेदांता-द मे दूरभाषः+91 124 483 4060 ई-मेलः comp 31 मार्च 2025 को स्प लेखापरीक्षित विवरण प्रिचालनों से कुल आय अवधि हेतु निवल लाभ (कर तथा अपवा मदों से पूर्व) कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवा	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिपे डिसिटी, सेक्टर liance@meda माप्त तिमाही त वित्तीय प समा तिम 31.03. (लेखाप 9,31 दित 1,83 देत 1,33	लिमिटे 004PLC128 कंस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम, onta.org वे 33, 31, वा रिणामों क रिणामों क 12-47 (33, 34	ट 8319 नई दिल्ली 1100 हरियाणा 12200 बसाइट: https:/ र्श्व के लिए का सार (ईपीएस को समाप्त तिमाही 1.03.2024 3 गखापरीक्षित) (र् 8,086.31 3 1,430.87	1, भारत /www.meda समेकित छोड़कर मिलि समाप्त वर्ष 1.03.2025 तेखापरीक्षित) 6,923.15 6,971.53	यन रुपये में) समाप्त वर्ष 31.03.2024 लेखापरीक्षित) 32,751.11 6,270.99	सूचि के अधि हैं। दित जो ब्लॉग के साथ पि से पर आवदि सी आरार दो जम (उध्धि उध्र) (घ्र) (उध्र) (उध्र) (घ्र) (उध्र) (घ्र) (घ) (घ) (घ) (घ) (घ) (घ) (घ) (घ) (घ) (घ	येत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचत पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पता: #18, प र्ल्ली, दिल्ली–110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह–देनदार हैं,से कन र्वंक, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह माग देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700186 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61 1 मात्र, की वसूली के लिये ''जैसी है ज 19.06.2025 को बिक्री की जायेगी एंपति तसिय संपत्ति फ्लैट नंबर 236, ग्राउंड फ्लोर त्ली, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरू पूर्व : फ्लैट नंबर 237 पश्चिम: फ्लैट रक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति ख रुपये मात्र) जमा की जाने वाली/जमा की लाख बीस हजार मात्र) तकरने के लिए धरोहर राशिरू 2,20,000.0 वारकर्ता/ बंधक कर्ता का ध्यान संपत्ति को वेनियम की धारा 13की उप–धारा (8) के प्रा दारकर्ता/गारंटर को दी जा रही सूचना भी म तामी की विस्तृत शर्ते और नियम कर्नाटक बैंव ''बिक्री के लिये बंधक संपत्ति'' शीर्षक के अं त्तार के साथ 19.06.2025 को प्रात ps://bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ पर पंजीकरण कराना 50, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदरा	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृ है, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वर्ज ति ग्रोवर, (3) श्री संजय ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वर्ज ॉकेट–III, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चिम पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली–11003 टक बैंक लिमिटेड,जनकपुरी ब्रांच, डीआईए/ए1, ज् ं जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, सुरक्षित लेनद 0001601 के तहत 17.08.2023 से भविष्य के ब्याप रुपये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इक्स 5 है'', ''जैसी है'', और ''जो कुछ भी है'' आध का विवरण: , जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट–प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम , नम ग्रोवर से संबंधित है का सभी भाग तथा हिस्सा नंबर 235 उत्तर: गली दक्षिण: अन्य का फ्लैट । बेची नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (बाईस् । जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (कार्य का वेव साइट जार रुपये मात्र) वेमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में क्यानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 02 के नियम 8 के उप –नियम(6) के अंतर्गत नी जाएगी) क की वेबसाइट www-karnatakabank-com की लिंक् तर्गत उपलब्ध हैं। ई–नीलामी 5 मिनट के असीमित : 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पोर्टल आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता के होगा और यूजर आईडी तथा तथा मैसर्स 4क्लोजर बाद–500038, संपर्क : 91–8142000809, ई–मेला नताइन प्रशिक्षण (संभावित रूप से 18.06.2025 को)
देनॉंक रू. सं. 1 2 3	ग्लोव सीआईएन रजि. कार्यालयः मेदांता मेडिक्लि कापोरेंट कार्यालयः मेदांता-द मे दूरभाषः+91 124 483 4060 ई-मेलः comp 31 मार्च 2025 को सर लेखापरीक्षित विवरण प्रचालनों से कुल आय अवधि हेतु निवल लाभ (कर तथा अपवा मदों से पूर्व) कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवा मदों के बाद) कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिपे डिसिटी, सेक्टर liance@meda माप्त तिमाही त वित्तीय प सम तिम 31.03. (लेखाप 9,31 दित 1,85 देत 1,33 देत 1,33	लिमिटे 004PLC128 कंस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम, onta.org वे 3 और वर्ष रिणामों क 12.47 (33.34 34.38	5 8319 नई दिल्ली 1100 हरियाणा 12200 बसाइट: https:/ र्श्व के लिए का सार (ईपीएस को समाप्त तिमाही 1.03.2024 3 खापरीक्षित) (र् 8,086.31 3 1,430.87 1,430.87 1,273.47	1, भारत /www.medax समेकित छोड़कर मिलि समाप्त वर्ष 1.03.2025 नेखापरीक्षित) 6,923.15 6,971.53 6,472.57	यन रुपये में) समाप्त वर्ष 31.03.2024 लेखापरीक्षित) 32,751.11 6,270.99 6,270.99	सूचि के अधि सिंह दित जे लॉ को श पर आव दिम्म आर तो मार तो जम (अधि जि स्था निर स्था कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि	वेत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचत पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पता: #18, प ल्ली, दिल्ली–110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह–देनदार हैं,से कन र्वक, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह माग देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700186 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61 1 मात्र, की वसूली के लिये ''जैसी है ज 19.06.2025 को बिक्री की जायेगी 106.2025 को बिक्री की जायेगी 107.107.107.107.107.107.107.107.107.107.	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृ ह है, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वर्जी ॉकेट–III, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चि पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली–11003 टक बैंक लिमिटेड,जनकपुरी ब्रांच, डीआईए/ए1, उ ं जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, सुरक्षित लेनदा 0001601 के तहत 17.08.2023 से भविष्य के ब्याज रुपये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस इं है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" आधा का विवरण: , जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट–प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम त्रमये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस इं है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" आधा का विवरण: , जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट–प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम त्रमये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस इं है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" आधा का विवरण: , जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट–प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम त्रमं तेरह लाख उन्नीस हजार कप बारह और इकस इं हो है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" आधा का विवरण: , जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट–प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम त्वा वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (बाईस्त ा जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (क्रपये ा बेची नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (रुपये 0 (दो लाख बीस हजार रुपये मात्र) वेमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ मे क्यानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 02 के नियम 8 के उप –नियम(6) के अंतर्गत तर्गत उपलब्ध हैं। ई–नीलामी 5 मिनट के असीमित ार्गा और यूजर आईडी तथा तथा मैसर्स 4क्लोजर वाद–500038, संपर्क : 91–814200809, ई–मेलान- तलाइन प्रशिक्षण (संगावित रूप से 18.06.2025 को) हस्ता/–कर्नाटक बैंक लिमिटेड के लिप मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत आधिकारी केविटटल लिजिटिड वां तल, टॉवर ए, पेतिनसुला बिजनेस पार्क,
द्रेनॉंक रू. रॉ. 1 2 3 4 5	ग्लोव सीआईएन रजि. कार्यालयः मेदांता मेडिक्लिनि कापोरेंट कार्यालयः मेदांता - द मे दूरभाषः+91 124 483 4060 ई-मेल: comp 31 मार्च 2025 को सम लेखापरीक्षित 31 मार्च 2025 को सम लेखापरीक्षित विवरण प्रिचालनों से कुल आय अवधि हेतु निवल लाभ (कर तथा अपवा मदों से पूर्व) कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवाि मदों के बाद) कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित मदों के पश्चात) अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेत् (कर पश्चात) शामिल]	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिफे डिसिटी, सेक्टर liance@meda माप्त तिमाही त वित्तीय प सम तिम 31.03. (लेखाप 9,31 दित 1,82 देत 1,33 देत 1,01 तु गय 95	लिमिटे 004PLC128 कंस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम, onta.org वे 3 और वर्ष रिणामों क 12.47 (33.34 34.38	5 8319 नई दिल्ली 1100 हरियाणा 12200 बसाइट: https:/ र्श्व के लिए का सार (ईपीएस को समाप्त तिमाही 1.03.2024 3 खापरीक्षित) (र् 8,086.31 3 1,430.87 1,430.87 1,273.47	1, भारत /www.medax समेकित छोड़कर मिलि समाप्त वर्ष 1.03.2025 तेखापरीक्षित) 6,923.15 6,971.53 6,472.57 4.813.18	यन रुपये में) समाप्त वर्ष 31.03.2024 लेखापरीक्षित) 32,751.11 6,270.99 6,270.99 4,780.60	सूचि के अधि सिंह दित जे लॉ को श पर आव दिम्म आर तो मार तो जम (अधि जि स्था निर स्था कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि	वेत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचत पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पता: #18, प ल्ली, दिल्ली–110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह–देनदार हैं,से कन र्वंक, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह माप देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700186 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61 मात्र, की वसूली के लिये ''जैसी है ज 19.06.2025 को बिक्री की जायेगी संपति तत्ती, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरु पूर्व : फ्लैट नंबर 236, ग्राउंड फ्लोर ल्ली, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरु पूर्व : प्लैट नंबर 237 पश्चिम: पलैट रक्षित मूल्य/ अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति ख रुपये मात्र) जमा की जाने वाली/जमा की लाख बीस हजार मात्र) 11 करने के लिए धरोहर राशिरू 2,20,000.0 वारकर्ता/ बंधक कर्ता का ध्यान संपत्ति को वेनियम की धारा 13की उप–धारा (8) के प्रा 5 सूचना प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 24 17कर्ता/गारंटर को दी जा रही सूचना भी म तामी की विस्तृत शर्ते और नियम कर्नाटक बैंक ''बिक्री के लिये बंधक संपत्ति'' शीर्षक के अं ततार के साथ 19.06.2025 को प्रात ps://bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ पर पंजीकरण कराना 5ए, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदरा @bankauctions-in/ पर यंजीकरण कराना 5ए, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदरा @bankauctions-in/ पर पंजीकरण कराना 5ए, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदरा @bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ पर पंजीकरण कराना 5ए, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदरा @bankauctions-in/ पर पंजीकरण कराना तक्त प्रात करना होगा। तांक: 15.05.2025 नि: दिल्ली	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृ ह है, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वर्ज तेत ग्रोवर, (3) श्री संजय ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वर्ज ॉकेट–III, एलआईजी पलैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चि पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली–11003 टक बैंक लिमिटेड,जनकपुरी ब्रांच, डीआईए/ए1, उ ं जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, सुरक्षित लेनद 0001601 के तहत 17.08.2023 से भविष्य के ब्याप रुपये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस हाँ है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" आध का विवरण: , जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट–प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम त्मये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस हाँ है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" आध का विवरण: , जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट–प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम त्मयो तरे से संबंधित है का सभी भाग तथा हिस्सा नंबर 235 उत्तर: गली दक्षिण: अन्य का फ्लैट । बेची नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (शर्घर व वी लाख बीस हजार रुपये मात्र) वेमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में क्यानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 02 के नियम 8 के उप –नियम(6) के अंतर्गत नी जाएगी) 5 की वेबसाइट www-karnatakabank-com की लिंव तर्गत उपलब्ध हैं। ई–नीलामी 5 मिनट के असीमित द 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पोर्टल आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता क होगा और यूजर आईडी तथा तथा मैसर्स 4क्लोजर वाद–500038, संपर्क : 91–814200809, ई–मेलाक् तलाइन प्रशिक्षण (संभावित रूप से 18.06.2025 कों, हस्ता/–कर्नाटक बैंक लिमिटेड के लिप मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकार की तेवर ए. ऐकिनसुटिड वां तल, टॉवर ए. ऐकिनसुटा
क्रा. सं. 1 2 3 4 5	ग्लोव संआइंएनः र्राज. कार्यालयः मेदांता मेडिक्लिन् कार्पोरेंट कार्यालयः मेदांता मेडिक्लिन् कार्पोरेंट कार्यालयः मेदांता-द मे दूरभाषः+91 124 483 4060 ई-मेलः comp 31 मार्च 2025 को सम लेखापरीक्षित विवरण प्रिचालनों से कुल आय अवधि हेतु निवल लाभ (कर तथा अपवा मदों से पूर्व) कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवा मदों से पूर्व) कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवा मदों के बाद) कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित मदों के पश्चात) अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेन् (कर पश्चात) लाभ तथा अन्य व्यापक अ (कर पश्चात) शामिल]	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिफे डिसिटी, सेक्टर liance@meda माप्त तिमाही त वित्तीय प सम तिम 31.03. (लेखाप 9,31 दित 1,82 देत 1,33 देत 1,01 तु गय 95	लिमिटे 004PLC128 कंस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम, inta.org वे 31र वर्ष 31र वर्ष 12.47 (33.34 34.38 13.78	3319 नई दिल्ली 1100 हरियाणा 12200 बसाइट: https:/ र्व के लिए की के लिए का सार (ईपीएस को समाप्त तिमाही 1.03.2024 3 खापरीक्षित) 1,430.87 1,273.47 1,273.38	1, भारत /www.medax समेकित छोड़कर मिलि समाप्त वर्ष 1.03.2025 तेखापरीक्षित) 6,923.15 6,971.53 6,472.57 4,813.18	यन रुपये में) समाप्त वर्ष 31.03.2024 लेखापरीक्षित) 32,751.11 6,270.99 6,270.99 4,780.60 4,780.60	सूचि के अधि सिंह दित जे लॉ को श प प आव दिम्म आर तो मार तो मार तो मार प जि स् मि स् सि स् मि स् सि स् मि स् सि स् मि स् सि स् सि स् सि स् सि स् सि स् सि स् सि स् सि स् सि स् सि स् सि स् सि स् सि स् स् सि स् स् सि स् स् स् स् स् स् स् स् स् स् स् स् स्	वेत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचत पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पता: #18, प ल्ली, दिल्ली–110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह–देनदार हैं,से कन दंक, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह माप देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700186 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61 मात्र, की वसूली के लिये "जैसी है ज 19.06.2025 को बिक्री की जायेगी] एंपति तसीय संपत्ति फलैट नंबर 236, ग्राउंड फ्लोग ल्ली, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरु पूर्व : फ्लैट नंबर 237 पश्चिम: फ्लैट रक्षित मूल्य/ अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति ख रुपये मात्र) जमा की जाने वाली/जमा की लाख बीस हजार मात्र) ा करने के लिए धरोहर राशिरू 2,20,000.0 वारकर्ता/ बंधक कर्ता का ध्यान संपत्ति को वेनियम की धारा 13की उप–धारा (8) के प्रा र सूचना प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 24 राक्कर्ता/गारंटर को दी जा रही सूचना भी म तामी की विस्तृत शर्ते और नियम कर्नाटक बेंद "बिक्री के लिये बंधक संपत्ति" शीर्षक के अं त्तार के साथ 19.06.2025 को प्रात ps://bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ पर पंजीकरण कराना उए, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदरा @bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ के वाध्यम सो का 15.05.2025 न: दिल्ली	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृ ह है, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वर्ज तेत ग्रोवर, (3) श्री संजय ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वर्ज ॉकेट–III, एलआईजी पलैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चि पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली–11003 टक बैंक लिमिटेड,जनकपुरी ब्रांच, डीआईए/ए1, उ ं जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, सुरक्षित लेनद 0001601 के तहत 17.08.2023 से भविष्य के ब्याप रुपये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस हैं है'', ''जैसी है'', और ''जो कुछ भी है'' आध का विवरण: , जनता फलैट्स,जो पॉकेट–प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम त्मये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस हैं है'', ''जैसी है'', और ''जो कुछ भी है'' आध का विवरण: , जनता फलैट्स,जो पॉकेट–प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम त्मयो तरे से संबंधित है का सभी भाग तथा हिस्सा नंबर 235 उत्तर: गली दक्षिण: अन्य का फ्लैट । बेची नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (शर्इस । जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (शर्इस । जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (शर्इस) वी लाख बीस हजार रुपये मात्र) वेमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ मं क्यानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 02 के नियम 8 के उप –नियम(6) के अंतर्गत नी जाएगी) 5 की वेबसाइट www-karnatakabank-com की लिंव तर्गत उपलब्ध हैं। ई–नीलामी 5 मिनट के असीमित : 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पोर्टल आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता क होगा और यूजर आईडी तथा तथा मैसर्स 4क्लोजर वाद–500038, संपर्क : 91–814200809, ई–मेलाज तलाइन प्रशिक्षण (संमावित रूप से 18.062025 को हस्ता/–कर्नाटक बैंक लिमिटेड के लिप मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकार टिपिटटए टिग्निटेड वां तल, टॉवर ए, पेतिनसुला बिजनेस पार्क, तजार, लोवर परेल, मुंबई– 400013 ा (अयल संपत्ति हेतू)
द्रेनॉंक रू. रॉ. 1 2 3 4 5	ग्लोव सीआईएन रजि. कार्यालयः मेदांता मेडिक्लिनि कापोरेंट कार्यालयः मेदांता - द मे दूरभाषः+91 124 483 4060 ई-मेल: comp 31 मार्च 2025 को सम लेखापरीक्षित 31 मार्च 2025 को सम लेखापरीक्षित विवरण प्रिचालनों से कुल आय अवधि हेतु निवल लाभ (कर तथा अपवा मदों से पूर्व) कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवाि मदों के बाद) कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित मदों के पश्चात) अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेत् (कर पश्चात) शामिल]	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिपे डिसिटी, सेक्टर liance@meda माप्त तिमाही त वित्तीय प सम तिम 31.03. (लेखाप 9,31 दित 1,85 देत 1,35 देत 1,35 देत 1,35 देत 9,55	रिलमिटेड 004PLC128 इस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम, inta.org वे जौर वा रिणामों व रिणामों व रिणामों व 12.47 33.34 34.38 13.78 91.04 37.17	8319 नई दिल्ली 1100 हरियाणा 12200 बसाइट: https:/ र्व के लिए का सार (ईपीएस को समाप्त तिमाही 1.03.2024 3 खापरीक्षित) 1,430.87 1,430.87 1,273.38 537.01	1, भारत /www.medax समेकित छोड़कर मिलि समाप्त वर्ष 1.03.2025 तेखापरीक्षित) 6,923.15 6,971.53 6,472.57 4,813.18 4,806.48 537.17	यन रुपये में) समाप्त वर्ष 31.03.2024 लेखापरीक्षित) 32,751.11 6,270.99 6,270.99 4,780.60 4,780.60	सूचि के अधि सिंह दित जे लॉ को श प प आव दिम्म आर तो म श र श र श र श र श र श र श र श र श र श	वेत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पता: #18, 1 ल्ली, दिल्ली–110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह–देनदार हैं,से कर्न fa, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह माग देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700186 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61 1 मात्र, की वसूली के लिये "जैसी है ज 19.06.2025 को बिक्री की जायेगी पंपति संपत्ति संसीय संपत्ति फ्लैट नंबर 236, ग्राउंड प्रलोग ल्ली, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरू पूर्व : प्लैट नंबर 237 पश्चिम: प्लैट रक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति ख रुपये मात्र) जमा की जाने वाली/जमा की लाख बीस हजार मात्र) 11 करने के लिए धरोहर राशिरू 2,20,000.0 वारकर्ता/ बंधक कर्ता का ध्यान संपत्ति को वि वेनियम की धारा 13की उप–धारा (8) के प्रा 5 सूचना प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 22 17कर्ता/गारंटर को दी जा रही सूचना भी म नामी की विस्तृत शर्ते और नियम कर्नाटक बैंत "बिक्री के लिये बंधक संपत्ति" शीर्षक के अं त्तार के साथ 19.06.2025 को प्रात फ़://bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ पर पंजीकरण कराना उए, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदरा @bankauctions-in/ पर पंजीकरण कराना प्र, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदरा @bankauctions-in/ पर पंजीकरण कराना प्र तिहो मर्वत्सी पर कॉ तवर्ड प्राप्त करना होगा। तांक: 15.05.2025 न: दिल्ली CICI	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिवृ हे, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वर्ज तेत ग्रोवर, (3) श्री संजय ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वर्ज तंकेट—III, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चि पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली—11003 टक बैंक लिमिटेड,जनकपुरी ब्रांच, डीआईए/ए1, इं ं जनकपुरी, नई दिल्ली—110058, सुरक्षित लेनद 0001601 के तहत 17.08.2023 से भविष्य के व्या- (रुपये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस् हाँ है'', ''जैसी है'', और ''जो कुछ भी है'' आध का विवरण: , जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट—प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम त्म ग्रोवर से संबंधित है का सभी भाग तथा हिस्स नंबर 235 उत्तर: गली दक्षिण: अन्य का फ्लैट । बेची नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (वाईस । जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (इप- 10 (दो लाख बीस हजार रुपये मात्र) वेमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ व त्यानों की ओर आकर्षित किया जाता है। 02 के नियम 8 के उप —नियम(6) के अंतर्गत नी जाएगी) क की वेबसाइट www-karnatakabank-com की लिंव तर्गत उपलब्ध हैं। ई—नीलामी 5 मिनट के असीमित : 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पोर्टत आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता क होगा और यूजर आईडी तथा तथा मैसर्स 4क्लोजज वाद—500038, संपर्क : 91—8142000809, ई—नेलात तलाइन प्रशिक्षण (संभावित रूप से 18.06.2025 को हस्ता/—कर्नाटक बैंक लिमिटेड के लिप मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकार्स कार्ग, लोवर परेल, मुंबई—400013 ता (अचल संपत्ति हेतु) वली 2002 के नियम 8(1) के साथ पट IV के अनुसार)
देनॉंक रू. सं. 1 2 3 4 5	ग्लोव संआइंएनः रजि. कार्यालयः मेदांता मेडिक्लिन् कार्पोरेंट कार्यालयः मेदांता-द मे दूरभाषः+91 124 483 4060 ई-मेलः comp 31 मार्च 2025 को सम लेखापरीक्षित विवरण प्रचालनों से कुल आय अवधि हेतु निवल लाभ (कर तथा अपवा मिदों से पूर्व) कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवा मिदों के बाद) कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवा मिदों के बाद) कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित मदों के पश्चात) अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेत् (कर पश्चात) लाभ तथा अन्य व्यापक अ (कर पश्चात) शामिल]	बल हेल्थ L85110DL20 नेक, ई-18, डिपे डिसिटी, सेक्टर liance@meda माप्त तिमाही त वित्तीय प सम तिम 31.03. (लेखाप 9,31 दित 1,85 देत 1,35 देत 1,35 देत 1,35 देत 9,55	रिलमिटेड 004PLC128 इस कॉलोनी, -38, गुरुग्राम, inta.org वे जौर वा रिणामों व रिणामों व रिणामों व 12.47 33.34 34.38 13.78 91.04 37.17	8319 नई दिल्ली 1100 हरियाणा 12200 बसाइट: https:/ र्व के लिए का सार (ईपीएस को समाप्त तिमाही 1.03.2024 3 खापरीक्षित) 1,430.87 1,430.87 1,273.38 537.01	1, भारत /www.medax समेकित छोड़कर मिलि समाप्त वर्ष 1.03.2025 तेखापरीक्षित) 6,923.15 6,971.53 6,472.57 4,813.18 4,806.48 537.17	यन रुपये में) समाप्त चर्ष 31.03.2024 लेखापरीक्षित) 32,751.11 6,270.99 6,270.99 4,780.60 4,780.60	पू कि के अधि सिंह दित जे लॉ कि साथ पे प प आव दिम्म आप ति साथ प प आव दिम्म आप ति साथ प प जी दि से प जी साथ प प जी साथ प प जी साथ प्रे से से से से से से से से से से से से से	वेत किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल पक्ष में बंधक /चार्ज की गई है, जिसका वेकारी द्वारा 6.5. 2025 को ले लिया गय ह (2) श्रीमती पूनम ग्रोवर पत्नी श्री इंद्रज ह, सभी (1), (2) और (3) का पताः #18, प ल्ली, दिल्ली–110063, (4) श्री श्यामू गुरम, उधारकर्ता/गारंटर/सह–देनदार हैं,से कन र्वंक, मायापुरी रोड, सतगुरु राम सिंह माय देय पीएसटीएल खाता संख्या 556700186 थ ही लागत सहित रुपये 13,49,012.61 1 मात्र, की वसूली के लिये ''जैसी है ज 19.06.2025 को बिक्री की जायेगी एंपति तसीय संपत्ति फलैट नंबर 236, ग्राउंड फ्लोग ल्ली, दिल्ली–110063 में स्थित, जो श्रीमती प नाएँरू पूर्व : फलैट नंबर 237 पश्चिमः प्लैट रक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति ख रुपये मात्र) जमा की जाने वाली/जमा की लाख बीस हजार मात्र) ता करने के लिए घरोहर राशिरू 2,20,000.0 वारकर्ता/ बंधक कर्ता का ध्यान संपत्ति को 1 वेनियम की धारा 13की उप–धारा (8) के प्रा 5 सूचना प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 26 11वर्करा/गारंटर को दी जा रही सूचना भी म नामी की विस्तृत शर्ते और नियम कर्नाटक बैंत् "बिक्री के लिये बंधक संपत्ति" शीर्षक के अं त्तार के साथ 19.06.2025 को प्रात 95://bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ के माध्यम से ps://bankauctions-in/ के माध्यम से अधिग्रहण करना होगा। तंकई प्राप्त करना होगा। तंकई प्राप्त करना होगा। तंकई प्राप्त करना होगा। तंकित प्रवर्तन नियम पठित परिष्ठ ह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटत ए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों बें नेनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वां तल	भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिवृ ह है, उसे 1) श्री इंद्रजीत ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वर्ज तें ग्रोवर, (3) श्री संजय ग्रोवर पुत्र स्वर्गीय वर्ज तंकेट—III, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम पुरी, पश्चि पतारू #414, वीपीओ महिपालपुर, दिल्ली—11003 टक बैंक लिमिटेड,जनकपुरी ब्रांच, डीआईए/ए1, 1 ं जनकपुरी, नई दिल्ली—110058, सुरक्षित लेनव 0001601 के तहत 17.08.2023 से भविष्य के व्या रुपये तेरह लाख उन्नीस हजार बारह और इकस् इं है'', ''जैसी है'' , और ''जो कुछ भी है'' आध का विवरण: , जनता फ्लैट्स,जो पॉकेट—प्प, पश्चिम पुरी, पश्चिम त्मम ग्रोवर से संबंधित है का सभी भाग तथा हिस्स नंबर 235 उत्तर: गली दक्षिण: अन्य का फ्लैट 1 बेची नहीं जा सकतीरू 22,00,000.00 रुपये (बाईस् 1 जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (बाईस् 1 जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (बाईस् 1 जाने वाली बयाना राशि: 2,20,000.00 रुपये (क्रिप् 2 के नियम 8 के उप —नियम(6) के अंतर्गत नंग जाएगी) 5 की वेबसाइट www-karnatakabank-com की लिंव तर्गत उपलब्ध हैं। ई—नीलामी 5 मिनट के असीमित् 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पोर्टत आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता क होगा और यूजर आईडी तथा तथा मैसर्स 4क्लोजज वाद –500038, संपर्क : 91–8142000809, ई—मेलात तलाइन प्रशिक्षण (संभावित रूप से 18.06.2025 को हस्ता/—कर्नाटक बैंक लिमिटेड के लि मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकार् क्रियिटल िंगियेड कु लि वा तल, टॉवर ए, पेतिबसुला बिजबेस पार्क, न जार्व, लोवर परेल, जुंबई— 400013 II (अचल संपत्ति हेतु)) वली 2002 के नियम 8(1) के साथ

1.	रोहित कुमार/ प्रीति चौधरी / MTCMT23012858	खसरा नंबर 184 पर मकान, माप 260 वर्ग मीटर, गाँव रतौली, परगना और तहसील सरधना, जिला मेरठ–250341, उत्तर प्रदेश स्थित अचल संपत्ति का अधिकारों में,टुकड़ा और अंश। सीमाएं:– पूर्व:–घर ईश्वर सिंह पश्चिम:– घर अतर सिंह उत्तर:– रास्ता दक्षिण:– डोनर का खेत	रु.1180649 (रुपये ग्यारह लाख अस्सी	12-05-2025
2	अमित शर्मा / सीमा शर्मा / MTCMT22008260	संपत्ति कस्बा बौराट, मापक्षेत्र 965 वर्ग फीट, तहसील – बौराट, जिला – बागपत – 250661, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएं:– पूर्वः 10 फीट चौड़ी गली पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क उत्तरः तारा चंद जैन का मकान दक्षिणः अनिल वर्मा का मकान	रु. 12,16,336 (बारह लाख	12—05—2025
3.	मनोज शर्मा / निखिल शर्मा / सरिता शर्मा / MTCMT23010739	खसरा नंबर 420 पर प्लॉट, माप 450.09 वर्ग फीट, लक्ष्मी नगर, पट्टी चौधरान (यमन नगर से रजवाहा के मध्य में) छपरौली रोड, कस्बा बड़ौत, जिला–बागपत–250611, उत्तर प्रदेश में स्थित अधिकारों में, अचल संपत्ति का टुकड़ा और अंश। सीमाएं:– पूर्व:– 11'' चौड़ी सड़क पश्चिम:– दूसरों की कृषि भूमि उत्तर:– दूसरों का प्लॉट दक्षिण:– अमरेश का प्लॉट	. 7,00,018	12—05—2025
	ः 16.05.2024 उत्तर प्रदेश		हस्ता./–र्आ सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस वि	धेकृत अधिकारी, लेमिटेड के लिए

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरी	Constrained and the second second second	arial.unik@gmail.c 1774		(समि ताख मे	. ईपीएस ओज़का
विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही	को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2025 को समापा वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
ufferment at war and	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
परिधालनों से कुल आय अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं असाधारण मदी एवं कर से पूर्व)	221.35 0.47	530.05 14.23	13.37 -29.87	782.50	23.97
अवधि का निवल लाभ / (हानि) (कर तथा माइनारिटी इंटरेस्ट तथा एसोसिएटस के लान / हानि के अंश के उपरांत)	0.47	14:20	-29.87	5.29	-53.41
अवधि की कुल व्यापक आय				-	
समला अंश पूंजी	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75
आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर)			4	+	
आय प्रति अंश (रु. 10/– प्रत्येक का) (परिवालनरत् एवं अपरिवालित परिवालनों हेतु)– 1. मूलमूत (रु.) 2. तरत्नीकृत (रु.)	0.01	0.43	-0.80	0.16	-1.60


1. कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तज़त अधिसूचित भारतीय लेखा मानकी (इंड एएस') के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी (मारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया है।

2, लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा किए गए उपरोक्त लेखापरीक्षित विलीम परिणामों को निवेशक मंडल द्वारा 15 मई, 2025 को आयोजित अपने बैठक र अनुमोदित किया गया था।

. कंपनी के पास उपरोक्त अवधि के लिए रिपोर्ट करने के लिए कोई आपवादिक या असाधारण आइटम नहीं है।

, पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, उन्हें तुलनीय बनाने के लिए पुनर्समुहित/पुनर्वयींकृत किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2025/2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूरे वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2024 तक समीक्षा किए गए आंकड़ों के बीच संतुलनकारी आंकड़े हैं। . उपरोक्त परिणाम, 5 जुलाई, 2016 के परिपत्र संख्या CIR/CFD/FAC/62/2016 द्वारा संशोधितानुसार सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) चिनियमावली 2015 के चिनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेज के पास प्रस्तुत त्रैमासिक 🦯 वार्थिक रूप में समाप्त चितीय परिणामों के विस्तुत प्रारूप का एक सारीश हैं। तिमाही और वर्ष के अंत में वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टीक एक्सचेज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.mnil.in पर उपलब्ध है। इसे नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्केन करके देखा जा सकता है :





दिनौंक : 15-05-2025 स्थान : नई दिल्ली

D A	आईसीआरए लिमिटेड
CRA	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L74999DL1991PLC042749
	पंजीकृत कथांलय: बी–710, स्टेट्लमैन हाउस, 148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110 001, टेलीफोन नं.: +91.11.23357940; वेबसाइट: www.icra.in ई–मेल आईडी: investors@icraindia.com

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैण्डएलोन लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

			(3	फ. मिलियन में)
विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	31 03 2025	31.03.2024	31 03 2025	31.03.2024

सचना

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (''आईईपीएफ प्राधिकरण'') को आईसीआरए लिमिटेड (''कंपनी'') के इक्विटी शेयरों के अंतरण के संबंध में यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(6) के प्रावधानों और अन्य संगत प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित निवेशक जिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (''नियम''), समय~समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है। नियमों में कंपनी के उन इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करने का प्रावधान शामिल हैं, जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान या दावां निरंतर सात वर्षों या उससे अधिक के लिए निर्धारित तरीके से नहीं किया गया है।

सदस्यगण कृपया गोट करों कि कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए धोषित लामांश से संगत ऐसे शेयरों को नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करना है जिनके संबंध में कथित वित्तीय वर्ष से निरंतर सात वर्षों से लाभांश का कोई दावा नहीं किया गया है। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं के अनुपालन में कम्पनी ने अपने पत्र भेजा है जिनके इक्विटी शेयर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किए जा रहे शेयरों का विवरण उपलब्ध करना, ताकि उचित कार्यवाही के लिए नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं। कम्पनी ने अदावावृत्रत लाभांश और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने हेतु देव शेवरों का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट https://www.icra.in/InvestorRelation/ Index#breadcrumbs पर अपलोड किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वह अदावाकृत लामांश एवं आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले शेयरों की विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट से जांच लें।

नियमों के संदर्भ में शेयरों (जिनके संबंध में निरंतर सात वर्षों से लाभांज अदावाकत है) को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरण की देय तिथि 12 सितम्बर, 2025 होगी। इसके अलावा, नियमों के संदर्भ में ऐसे शेयरों पर उपार्जित सभी लाभ जैसे बोनस शेयर, स्पिलट, समेकन, फ्रेक्शन शेयर आदि केवल राइट्स इश्य को छोड़कर, सभी आईईपीएफ प्राधिकरण के पास जमा कर दिये जाएंगे।

संबंधित सदस्यगण जिनके क्षेयर आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, ये कृपया नोट करें कि कम्पनी डिपोजिटरीज के माध्यम से कॉर्पोरेट एक्शन के द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयर का अंतरण करेगी।

यदि सदस्यों से ऐसे इक्विटी शेयरों के संबंध में कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करते हुए विनिर्देत्रित देय तिथि तक ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर देगी।

सदस्यगण इस बात को भी मोट करें कि अदावाकृत लाभांश एवं आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले शेयरों एवं ऐसे शेयरों पर उपाजित सभी लाभ, यदि कोई हो, सहित के संबंध में नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण से वापिस पाने का दावा किया जा सकता है।

यदि इस विषय और/या नियमों के संबंध में कोई सदस्य किसी भी प्रकार की जानकारी लेना बाहता है तो वह नीचे वर्णित पते पर कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर टांसफर एजेंट और/या कम्पनी से सम्पर्क कर सकता है।

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रा. लि.	आईसीआरए लिमिटेड
नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच–2, एलएससी, सी–1 ब्लॉक,	बिल्डिंग न. ८, दूसरा तल, टॉवर-ए,
नजदीक सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058	डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-2, गुडगांव-122002
फोम: +91 11 4141 0592 – 94, फैंक्स +91 11 4141 0591	फोन: +91 112 4545300
ई–मेल: mLhelpdesk@in.mpms.mulg.com	ई-मेल: investors@icraindia.com
थान : गुरूप्राम लांक : 16 मई, 2025	कृते आईसीआरए लिमिटेड (एस. शाकेब रहमान) कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	8,028.68	7,242.69	32,041.46	29,747.24
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर तथा अपवादित मदों से पूर्व)	1,757.83	1,486.34	6,729.43	6,588.52
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित मदों के बाद)	1,258.87	1,486.34	6,230.47	6,588.52
4	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित मदों के पश्चात)	934.12	1,094.31	4,615.28	4,863.51
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल]	911.52	1,093.93	4,605.60	4,853.25

1. लेखापरीक्षा समिति द्वारा इन परिणामों की समीक्षा और सिफारिश की गई है और तदनुसार 15 मई 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। समेकित और स्टैंडअलोन तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट https://www.medanta.org पर भी उपलब्ध है।



अपने उपक्रम के साथ 01.01.2024 की प्रभावी तिथि से सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों लाभों, हित, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों, इत्यादि के साथ एव चलायमान कंपनी के रूप में टीसीएल के साथ संविलित हो गई हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उसके संबंध में सभी बकाया, आवेदक कंपनी को हस्तांतरित हो गए हैं और इस प्रकार टीसीएल उसके अनुसार (उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं) से उसका दावा करने की अधिकारी है। जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में और प्रतिभुति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नलिखित उधारकर्ता तथा सह–उधारकर्ताओं ⁄ गारंटरों अर्थात् 1. मनो. हर अरोड़ा मकान नं. 25 / 8, मरला न्यू कॉलोनी, पलवल, हरियाणा, 121102, 2. मोना अरोड़ा मकान नं. 25 / 8, मारला न्यू कॉलोनी, पलवल, हरियाणा 121102, 3. मैसर्स ओम साई एंटरप्राइजेज, इसके प्रोप. मनोहर अरोड़ा के माध्यम से, मकान नं. 25 / 8, मरला न्यू कॉलोनी, पलवल, हरियाणा 121102 को सूचना में अंकित राशि रु. 1,24,53,778.38 (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख तिरेपन हजार सात सौ अट्ठहत्तर एवं अड़तीस पैसे मात्र) 12 / 12 / 2019 के अनुसार ऋण खाता सं. 7280161 के माध्यम से, का ब्याज तथा दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि के साथ उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्तागण, राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ताओं को विशेष रूप में और जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम

अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 से 232 के

प्रावधानों के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") के बीच हस्तांतरणकर्ताओं के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") के बीच हस्तांतरिती के रूप में व्यवस्था की योजना (''उक्त योजना'') को विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (हस्तांतरणकर्ता कंपनियां)

कर लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा एतदद्वारा सामान्य रूप में सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई भी लेन–देन, रु. 1,24,53,778.38 (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख तिरेपन हजार सात सौ अट्ठहत्तर एवं अड़तीस पैसे मात्र) की एक राशि 12 / 12 / 2019 के अनुसार, तथा राशि पर 12.12.2019 से नियत ब्याज तथा दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत 14 मई 2025 को भौतिक अधिग्रहण

(उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है)।

संपत्ति की अनुसूची

संपूर्ण मकान नं. 25∕8 का शीर्ष तल, माप 200 वर्ग गज, (सच्चिदानंद पार्क के समीप) मरला न्यू कॉलोनी, पलवल, हरियाणा 121102 में स्थित, विक्रय विलेख 17.03.2015 के अनुसार सिविल कोर्ट के निर्देशन के कारण। इस प्रकार परिसीमित है :- पूर्व- अन्य, पश्चिम- सड़क, उत्तर- भूखण्ड सं. 24, दक्षिण— भुखण्ड सं. 26

स्थान ः पलवल, हरियाणा	हस्ता /— प्राधिकृत अधिकारी
दिनाँक : 14 मई 2025	टाटा कैपिटल लिमिटेड






स्थानः गुरुग्राम

दिनांक: 15 मई. 2025









FINANCIAL EXPRESS

AVON MERCANTILE I IMITED IN THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL- II AT MUMBAI **MISCELLANEOUS APPLICATION NO. 36 OF 2024** Regd. Offi IN Exh-09 **APPEAL NO. 20 OF 2022** STAT JM Financial Asset Reconstruction Company Ltd.Certificate Holders QUARTER AND YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2025 V/s Shri Shyam Metal Manufacturing Pvt. Ltd. & Ors. ...Certificate Debtors NOTICE Whereas the application has been made to this Tribunal. Copy of which is enclosed herewith. This is to give you notice as to why relief asked for should not be granted. Take notice that the said Application will be taken up for hearing by the Tribunal at 11:00 am or at such time immediately thereafter according to the convenience of the Tribunal on 27/05/25 You are requested to appear in person or by a pleader/ Advocate duly instructed at the aforesaid time and file your reply, if any. Take Notice that in default of, your appearance on the day mentioned herein before, the proceedings will be heard and determined in your absence Give issued under my hand and the seal of this Tribunal on this 10th day of Feb, 2025. Sd/-Seal Ld. Registrar DRT-II, Mumbai Name & Address of all Respondents: . Shri Shayam Metal Manufacturing Private Limited:- Gut No.59 & 67. Shirishpada Road, Village Kambare Taluka-Wada, Thane - 421303 . Mr. Sureshkumar Attarsingh Bundiwal :- Flat No. 702, 7th Floor, Pinnacle B, Vasant Oscar, LBS Marg, Mulund (W), Mumbai 400080 3. Bharat Bhushan Kaushik: - 3230/234, Ramnagar Tri Nagar New Delhi - 110035 Umashankar Motilal Agarwal:- G 706, 7th Floor, Redwood Society, Vasant Garden, CHSL, Mulund (West), Mumbai 400080 5. Sujata Umashankar Agarwal:- G 706, 7th Floor, Redwood Society, Vasant Garden, CHSL, Mulund (West), Mumbai 400080 VOSSLOH BEEKAY CASTINGS LIMITED CIN : U27102DL1974FLC007229 Registered Office : Unit No. 5, 12th Floor Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi 110019 Notes: NOTICE (FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY) TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) DEMAT ACCOUNT Notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act. 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the rules") (as amended). As per the Rules, the Company is required to transfer all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for Seven Consecutive Years or more, to an IEPF Demat Account. www.avonmercantile.in. As provided under the rules, individual notice will be sent to the concerned shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred to the IEPF Demat Account. The details of such shareholders, their Names, Folio No./ DP- Id- Client Id and their shares which are due fortransfer to the IEPF Demat Account are also being available at the Registered Office address of the Company at Unit No. 5, 12th Floor Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi 110019. Concerned shareholders are requested to refer to verify the details of their unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to the IEPF Demat Account. Place : NOIDA Concerned shareholder sholding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPFDemat Account may note that the Company would be issuing new Share Certificate(s) in lieu of the original Share Certificate(s)held by them. After issue of new Share Certificate(s)for the purpose of transfer of shares to IEPFDemat Account as per the Rules, the original Share Certificate(s) Date : 15.05.2025 which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-CAPRI GLOBAL negotiable. The Shareholders may further note that the details available with the Company is treated as notice inrespect of issue of the duplicate Share Certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPFpursuant to the Rules. In case of concerned shareholders holding shares in demat form their shares will be transferred to the IEPF Demat Account by way of IGUSENG FINANCE LIMITED. a Corporate Action and their demat accounts will be accordingly debited. Shareholders can claim their dividend by writing to the Company/Registrar and Transfer Agents of the Company viz. M/s Skyline Financial Services Private Limited andenclosing original cancelled cheque stating their name as the account holder. If the Company does not receive any communication from the concerned shareholders for claiming their unclaimed dividends on or before 31"August, 2025, the Company shall transfer their shares to the IEPF Demat Account, in order to comply with the provisions of the Rules. However, where there is a specific order of Court or Tribunal or Statutory Authority restraining any transfer of such shares and navment of dividend or where such shares are needed or transfer of such shares and payment of dividend or where such shares are pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, 1996, the Company will not transfer such shares to IEPF Demat Account. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to the IEPF authority pursuant

fice: Upper Basement, Smart Bharat Mall Plot No. I-2, Sector-25A, Gautam Buddha Nagar, Noida, UP 201301 IN CIN: L17118UP1985PLC026582
TEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL DESULTS FOR THE
TEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

	()		1	(Rs	s. in Lakhs)
PARTICULARS	3 Months ended on 31/03/2025	Preceding 3 months ended on 31/12/2024	Corresponding 3 months ended in the previous year on 31/03/2024	Year ended on 31/03/2024	Year ended on 31/03/2025
3	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total income from operations	102.86	73.71	63.56	433.64	255.22
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(0.95)	0.26	13.41	14.26	(1.41)
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(0.95)	0.26	13.41	14.26	(1.41)
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(0.95)	0.26	13.41	14.26	(1.41)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(0.95)	0.26	13.41	14.26	(1.41)
Equity Share Capital				747.74	747.74
Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-		(233.95)	(235.36)
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - :					
1. Basic	(0.01)	0.00	0.18	0.19	(0.02)
2. Diluted	(0.01)	0.00	0.18	0.19	(0.02)
Notos					

The above audited Standalone Financial Results are reviewed by the Audit Committee, approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 15th May, 2025. Auditors Report, as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been carried out by the Statutory Auditors.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com, www.cse-india.com and on the company's website i.e.

For AVON MERCANTILE LIMITED

Sd/-
(DISHA SONI)
COMPANY SECRETARY
ACS 42944

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED Registered & Corporate Office 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013

Circle Office Address - 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi - 110060

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The undersigned is the Authorised Officer of Capri Global Housing Finance Limited. (CGHFL) under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) to pay to CGHFL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, togetherwith further applicable interest from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other writings if any executed by the said Borrowen's') As security for due renavment off he loan, the following assets have been more

MEGA NIRMAN & INDUSTRIES LIMITED CIN: L43219DL1983PLC015425 Regd. Off.: 811-812, Aggarwal Cyber Plaza-1, Netaji Subhash Place, Pitampura Delhi-110034 Contact No.: 011-43590917, E-mail Id:secretarial.mnil@gmail.com								
AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTE				<u>`</u>	hs except EPS)			
PARTICULARS	Quarter Ended March 31, 2025	December 31, 2024	Quarter Ended March 31, 2024	2025	Year ended 31st March, 2024			
-	Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited			
Total income from operations	221.35	530.05	13.37	782.50	23.97			
Net Profit / (Loss) for the period (before Exceptional & Extraordinary items &Tax)	0.47	14.23	-29.87	7.08	-53.38			
Net Profit / (Loss) for the period (after tax &Minority Interest & share of profit/loss of associates)	0.47	14.23	-29.87	5.29	-53.41			
Total comprehensive income for the period	1	8						
Equity Share Capital	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75			
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-			
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (Rs.) 0.01 0.43 -0.89 0.16								
2. Diluted (Rs.)								
 Notes: The Audited Financial Results of the company have been p Companies(Indian Accounting Standards) Rules, 2015 a 2016. The Above Audited Financial Results reviewed by the Aud 15, 2025. The Company does not have any Exceptional or Extraordin The Previous period's figures have been regrouped/reclar ended 31st March. 2025/2024 are balancing figures between 	s amended by the it Committee, were ary items to report ssified, wherever r	Companies (India approved by the for the above perio	an Accounting Star Board of Directors od. e them comparable	ndards) (Amen at their Meetin e. The figures fo	dment) Rules, g held on May or the Quarter			


ended 31st March, 2025/2024 are balancing figures between the Audited figures of full year and reviewed figures upto 31st December, 2024.

The above is an extract of the detailed format of Quarter/ year ended Financial Results Filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016. The full format of the Quarterly and year ended financial results are available on the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.mnil.in. the same can be accessed by scanning the QR code provided below:



For & On behalf of Mega Nirman & Industries Limited Sd/-Ramanuj Murlinarayan Darak (Whole time Director) DIN: 08647406

Date: 15.05.2025 Place: New Delhi



Name of Borrowers/Guarantors / LAN: Mr. Abhishek Agarwal, Mrs. Garima Agarwal, Mrs. Nalini Agarwal, All At: A-4/704, Krishna Apara Garden, Ghaziabad, Semiurban, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201014 | A/c No. DL/BDP/BDRP/A000000988 | NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date: 24-02-2025, Amount Outstanding: Rs. 5793210/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. 704 (Type- Block A-4) on 7th Floor area measuring 1698 sqft Built Upon Plot No. 7 situated at Group Housing Complex Known as Krishna Apra Gardens, Vaibhav Kund, Indrapuram and Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Road 80 ft. wide, West: Road 80 ft. wide, North: Plot no.18A & 18 B, South: Road 80 ft. wide

to the said Rules. Shareholders may please note that after the transfer of their shares to the IEPF Demat Account.	documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to CGHFL by the said Borrower(s) respectively.	Village Pasonda Colony Known as Vikram Enclave, Pargana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Others, West: Rasta 30 ft. wide, North: House of Arif, South: Plot of others.
they may claim from the IEPF Authority both the unclaimed dividend amount(s) and the shares including all benefits accruing on such shares by making an online application in the prescribed Form	S. Name of the Borrower Demand Notice Description of secured asset	3. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Amrit Pal Singh, Mrs. Priyanka Kaur, Both At: Plot No.185 GF-1st , Shakti Khand 2nd Indirapuram GZB UP, Shakti Khand 2nd Indirapuram GZB UP, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201010 A/c No. DL/BPR/ASHO/A000000079 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 5014929/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Second Floor (LHS-Back Side) HIG Flat No. B-2
IEPF-5, available on the website www.iepf.gov.in and sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company) to the Company along with the requisite documents enumerated in Form IEPF -5.	1. (Loan Account No. LNHL30455LX300010185 08/05/2025 All That Piece and Parcel of property having land and building being	area Measuring 1300 Sq. Fts. build up on Residential Plot No. Gyan Khand-I/15, area measuring 435.12 Sq. Mtrs., Situated at Residential Colony Indirapuram, Ghaziabad, Tehsil & Distt. Ghaziabad U.P. Bounded As: East: Plot no. 16, West: Road 150 ft. wide, North: Plot no. 30, South: Flat No. B-1 Entry/Stairs/Flat No. B-4
In case of any queries, the concerned shareholders may please contact at : (i) Registrar and Transfer Agents (ii) Vikas Aggrawal,	(OId) 5120000979996 (New) Rs. 60,79,275 Residential House No. 74/1, having an area of 130.50 Sq. Yds. I.e., 109.12 LNHE30455LX300010186 (Old) 53000000993507 (As on Sq. Mts., part of Khasra No. 4004, Mohalla Kareem Nagar, Hapur Road,	4. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Anand Verma, Mrs. Jyoti Srivastav, Both At: Plot No 261, Plot No 261 Sec 4 Near Ramprastha Vaishali GZB, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201019 A/c No. GZ/GNR/GNRN/A000000361 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 3812678/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. UGF-6, Upper Ground Floor Front Side Rhs Corner Flat, Area
M/s Skyline Financial Services Private Limited Authorised Representative D-153A, First Floor, Okhla Industrial Area, M/s Vossloh Beekay Castings Limited	(New) (MEERUT Branch) Mr. Sameer (Borrower) 07/05/2025 Meerut City, Tehsil & District Meerut, Uttar Pradesh - 250002 Bounded As Mrs.Aysha, Mr.Saleem Ansari Alias Saleem Follows: East: House of Akhtar, West: Rasta 20 Ft. Wide, North: House of	Measuring 81.61 Sq. Meters, i.e. 100 Sq. Yards, i.e. 900 Sq. Ft.total Land Area Measuring 0.0650 Hectares i.e., 777 Sq. Yards, Property Bearing Khasra No. 503/3, Situated At Vidhyak Colony, Village Makanpur, Indirapuran, Nearby Apex Royal Castle, Tehsil & Distr. Ghaziabad, U.P. Bounded As: East: Other Building., West: Road 15
Phase-I, New Dethi-110020 Tel: 011-26292680, 011-40450193, 011-40450194-97 Unit No. 5, 12th Floor Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi 110019, Email: vikas.aggarwal@vossich.com	Ahamad, Mr.Shavej (Co-Borrower) Naeem Malik, South: Rasta 20 Ft. Wide	Ft. Wide, North: Other Property & Vacant Land, South: Other Property & Vacant Land & way of Other Building. 5. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Balraj Balraj, Mrs. Sonam Sonam, Both At: Flat No Ug 03 Plot No C 31/32, Sai Upwan Society Yusufpur Chak Saberi,
For VosslohBeekay Castings Limited	 (Loan Account No. LNHE30017LX300015307 08/05/2025 All that Piece and Parcel of property having land and building being a House (Old) 53000000998357 (New) (AGRA Branch) Mr. Rs. 35,43,676 Constructed on Khasra No. 1082, land Area Admeasuring 82,22 Sq. Yds. 	Gautam Buddh Nagar U.p., Metro, Greater Noida, Uttar Pradesh, India - 201009 A/c No. GZ/GNR/GNRN/A000000148 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date: 24-02-2025, Amount Outstanding: Rs. 1309158/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Flat No. UG-04 on Upper
(Gutzar Mightani)	Nitin Gupta (Borrower) Mrs.Meena Gupta, (As on (i.e., 68.70 Sq. Mts.), Waka Shiv Kunj, Balkeshwar, Mauza - Ghatwashan,	Ground Floor, front side, MIG, without roof rights, covered area measuring 35 sq. yd. built on Plot No. 20, 21, 28 & 29, Part of Khasra No. 76 & 78Min situated at Sudamapuri Colony (Krishna Vatika) in Village Dundahera, Tehsil & Distt. Ghaziabad UP.
Place : New Delhi (Director) Dated : 14.05.2025 DIN : 10454328	Mrs.Sunena Gupta (Co-Borrower) 07/05/2025) Hari Parwat Ward, Tehsil & Distt Agra, Uttar Pradesh - 282004 Bounded As:- East: Property of Vimla Devi, West: Remaining Part of Plot, North:	6. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Bhim Singh, Mrs. Sunita Sunita, Both At: E 645 K Piche Free Hold, Sangam Vihar Nandgram Ghaziabad, Sangam Vihar Nandgram Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201001 A/c No. DL/NCU/GHAU/A000003017 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 1446411/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential House No-F-546, EWS on
N	House of Upadhyay Ji, South: Gali 20 FL wide 3 (Loan Account No. LNHE30444LX300011434 08/05/2025 All that Piece and Parcel of the property Residential House part of Khet No.	Ground Floor, (without Roof Rights) admeasuring area-19.53 Sq. Mtr. & Covered area-18.63 Sq. Mtr., Situated at Nandnikunj (Nandgram) Tehsil & DistrictGhaziabad (U.P.) Bounded As: East: Road 3.79 Mtr, West: Road 1.80 Mtr, North: House No-F-545, South: House No-F-547.
ADITYA BIRLA ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED Registered Office- Indian Rayon Compound, Veraval,	(Old) 53100000981452 (New) (JEWAR Branch) Rs. 9,62,480 624 S situated at Shikarpur – Jahangirabad Road at Village Lohra Pargana	7. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Deepak Kumar Shrivastawa, Mrs. Manju Shrivastwa, Both At: House No 30-A, Shakti Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ashish Digital Phot Studio, Semiurban, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201014 A/c No. DL/BDP/BDRP/A000001059 NPA Date: 05-11-2024
CAPITAL Registered Office- Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat – 362266 Branch Office - No N/17, 1St Floor, Vijaya	Mr. Ajitpal (Borrower) Mrs. Suman (Co-Borrower) (As on 07/05/2025) Admeasuring - 151.67 Sq. Mtrs. Bounded As:- East: Rasta 3.65 Mtrs., West:	Demand Notice Date: 24-02-2025, Amount Outstanding: Rs. 752265/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. SK-I/30A(LIG)(T/S) on 1st Floor area measuring 28.90 sqmt situated at Colony Known as Indrapuram Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Flat No. 29A and Road 25ft Wide. West: Flat No. 19A. North: Flat No. 31A. South: Flat No. 27A.
Building Barakhamba Road, New Delhi - 110001	House of Dragpal, North: Rasta 7.50 Mtrs., South: House of Ramesh If the said Borrowers shall fail to make payment to CGHFL as aforesaid, CGHFL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of	 8. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Dharmendra Singh Tomer, Mr. Savitri Kumari, Both At: A land Tahsil Dhaulana Ghaziabad, Semiurban, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201001 A/c No. DL/LON/LON/LON/A00000039 NPA Date: 06-01-2025 Demand Notice Date : 17-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 1093477/- as on
APPENDIX IV [See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Possession Notice (for Immovable Property)	the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under	17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: House land area measuring 111.15 sq. yards, i.e. 92.96 sq. meters, out of Khasra no. 264, Situated at Village Galland. Pargana Dasana, Tehsil Dhoulana, District- Hapur UP. Bounded As: East: Plot of other, side 58 ft, 5 inch, West: House of other, side 58 ft, 5 inch,
Whereas, The undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing	the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of CGHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Actor Rules made the reunder, shallbe liable for imprisonment and/or penalty as	North: Plotofother, side 17 ft, 1 inch, South:-Road 18 ft, wide, side 17 ft, 1 inch 9. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Dheeraj Kumar, Meera Meera, Both At: 1/770, Rehman Building, West, Delhi, India - 110032 A/c No.
Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers con-	provided under the Act. Place : Delhi/NCR_Date : 16-05-2025 Sd/- (Authorised Officer), For Capri Global Housing Finance Limited (CGHFL)	DL/BPR/ASHO/A000000189 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date: 18-04-2025, Amount Outstanding: Rs. 1106584/- as on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. SF-02 Front LHS Second Floor, area measuring 336 sq. ft, i.e. 31.22 sq. meters, built on Plot No. B-159, land area measuring 150 Sq. Yards, i.e. 125.41 Sq. Meters, Part of Khasra No. 211, Situated at Rail Vihar Sehkari Awas Samiti Ltd. Village Sadullabad, ParganaLoni, Tehsil & District
ferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 had issued a demand notice dated 06-03-2025 calling upon the bor-	Place : Delhi/NCR_Date : 16-05-2025 Sd/- (Authorised Officer), For Capri Global Housing Finance Limited (CGHFL)	Ghaziabad, (U.P.). Bounded as: East: Vacant Plot, West: Flat SF-01, side 58 ft, 5 inch, North: Building Entry/Road 30 feet, South:- Flat Entry/Common Area/Stairs/Flat SF-03 10. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Jeetbahadur Vishwarma, Mrs. Manjinde Kaur, Both At: Rz 250 2nd Floor, Tughlakabad Extension Kalkaji PO. South Dehli,
rowers NADEEM FARUKI, NAJIA MAASHU ALI, AHAD FAROOQUI TRADING CO.	SMFG SMFG India Home Finance Co. Ltd.	Metro, Delhi, Delhi, India - 110019 A/c No. GR/KAP/KUNJ/A000001045 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 4590689/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: A Freehold Residential Flat Bearing No. 06 on 6th Floor, Having Super Area
& FAIHAD FARUKHI mentioned in the notice being of Rs. 9,66,258.54/- (Rupees Nine Lakh Sixty Six Thousand Two Hundred Fifty Eight and Fifty Four Paise Only)	Grinashakti Corporate Off.: 503 & 504, 5 th Floor, G-Block, Insipre BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Regd. Off.: Commerzone IT Park, Tower B, 1st Floor, No. 111, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai – 600116, TN	87 Sq. Mtrs., Situated at Group Housing Complex, Rattan Jyoti, Built-Up Property Bearing Plot No. 20, Sector – 4, Residential Colony Vaishali, Ghaziabad, Tehsil and District Ghaziabad, U.P. Bounded As: East: Open/Flat No. 607, West: Cut Out/Corridor/Flat No. 603, North: Corridor/Staircase/Flat No. 605, South:- Flat no. 601
within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrow-	POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY [(Appendix IV) Rule 8(1)]	11. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Jitendra Itavari, Mr. Mamta Jitendra, Both At: Flat No-A-303 Keshav Kunj-10, Plot No-C-77/80, Sec-5, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201005 A/c No. DL/NCU/GHAU/A000001559 NPA Date: 05-12-2024 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 2004569/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Freehold Residential Flat No. A-3 on
ers and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the prop-	WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of SMFG India Home Finance Co. Ltd. a Housing Finance Company	Second Floor without roof right (front side RHS) admeasuring super area 900 sq. ft. (83.61 sq. mtr.) built on Plot No. 1/22 situated at Sector-5 in Rajendra Nagar Residential Colony Tehsil & Distt. Ghaziabad (U.P.) Bounded As: East: 40 ft. wide road, West: Plot no 14 & 15, North: Plot no. 21, South:- Plot no. 23.
erty described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act. read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement)	[duly registered with National Housing Bank (Fully Owned by RBI)] (hereinafter referred to as "SMHFC") under Secuitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of the powers conferred	12. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Kuldeep Sharma, Mrs. Asha Sharma, Both At: J 15 SF 2 Sector 12, Sector 12 Pratap Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201009 A/c No. DL/BPR/JHAH/A00000252, CO/CPC/CPOF/A000004344 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding:
Rules, 2002 on this 14th day of May of the year, 2025. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with	under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names mentioned below) to repay the amount mentioned in	Rs. 2272346/- as on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential First Floor. Back Side, L.H.S., Flat No. FF-5, area measuring 45 Sq. Mtrs., Built on Plot No. J-15, Situated at Block-J, Sector-12, G.M.P., Residential Colony Known as Pratap Vihar, Ghaziabad. Tehsil & Dist. Ghaziabad U.P Bounded As; East: Plot no. J-16. West: Plot no. J-14. North: Park. South:- Road 25 ft, wide
the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the	the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that the	13. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Lalit Tyagi, Mrs. Poonam Tyagi, Both At: New Friends Coloni , Gali No 05 Near Lotus School Sanjay Nagar, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201002 A/c No. DL/NCU/GHAU/A000003129 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding :
Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of Rs. 9,66,258.54/- (Rupees Nine Lakh Sixty Six Thousand Two Hundred Fifty Eight and Fifty Four Paise Only) inter-	undersigned has Taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned here in above in	Rs. 1891092/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential House No-485A, admeasuring area-33.40 Sq.Mtr. Situated at Sector-23, Block-N, in Sanjay Nagar, Tehsil & District- Ghaziabad, (U.P.), Bounded As: East: House No-486A, West: House No-482A, North: Road, South:- House No-487A
est thereon. Borrowers attention is invited to the provisions of Sub-section 8 of Section 13 of the Act., in respect of time available, to redeem the secured assets.	particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and any dealings with the property will be subject	14. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Laxmi Kant Laxmi Kant, Mr. Rahul Singh, Mrs. Aparna Kant, All At: Flat No 1205a Tower C, Gardenia Square Crossings Republic GZB, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201016 A/c No. DL/GRN/ALPH/A000000237 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Ds. 2005778/Las on 18.02.2025 + interact + Lagel Charges Datails of Immovable Breastly Postatial Elective Page (Section 2015) - 201016 A/c No. DL/GRN/ALPH/A000000237 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Ds. 2005778/Las on 18.02.2025 + interact + Lagel Charges Datails of Immovable Breastly Postatial Elective Page (Section 2016) - 201016 A/c No. DL/GRN/ALPH/A000000237 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Ds. 2005778/Las on 18.02.2025 + interact + Lagel Charges Datails of Immovable Breastly Postatial Elective Page (Section 2016) - 201016 A/c No. DL/GRN/ALPH/A000000237 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Ds. 2015778/Las on 12015 + Elective Page (Section 2016) - 201016 A/c No. DL/GRN/ALPH/A000000237 NPA Date: 06-02-2025 - 201578 - 201016 A/c No. DL/GRN/ALPH/A0000000237 NPA Date: 06-02-2025 - 201578 - 201016 A/c No. DL/GRN/ALPH/A0000000237 NPA Date: 06-02-2025 - 201578 - 201016 A/c No. DL/GRN/ALPH/A0000000237 NPA Date: 06-02-2025 - 20158 - 201016 A/c No. DL/GRN/ALPH/A0000000237 NPA Date: 06-02-2025 - 20168 - 201016 A/c No. DL/GRN/ALPH/A000000000000000000000000000000000000
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY	to the charge of "SMHFC" for an amount as mentioned herein under and interest thereon. SI. Name of the Borrower(s) Description of Secured Assets Demand Notice	Amount Outstanding : Rs. 2005778/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Flat No. 1205-A, on 12Ath Floor, Block- C, super area measuring 1075 Sq. Ft. i.e. 99.87 Sq. Meters, in Group Housing Residential Complex namely "Gardenia Square" GH Plot No. 6, in the township known as "Crossings Republik", situated at VillageDundahera, Ghaziabad, U.P. BoundedAs: East: Open Below, West: Flat No. 1206/A, North: Open Below, South:- Entry
All That Piece And Parcel Of Second Floor (Without Roof Rights) Upto Ceiling Level Of Built Up Property Bearing No. C-53, Area Measuring 130 Sq. Yds. I.E. 108.69 Sq. Mtrs.,	No. / Guarantor(s) LAN (Immovable Property) Date & Amount Possession	15. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Manoj Kumar, Mr. Nirmla Manoj Kumar, Both At: H No-107, Gali No-2, Shanti Nagar, Near NH-24, Ghaziabad, Shanti Nagar, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201009 A/c No. DL/KRB/KRBH/A000000391 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount
Plinth/Covered Area Measuring 97.82 Sq. Mtrs., Consisting Of Three + One Room Set On Second Floor, Passage And Staircase Are Common With Common Entrance With	LAN :- 611540111728331 Yards-Residential & 23 Sq Yards-Commercial), Situated At Mauja	Outstanding: Rs. 1452217/- as on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Plot of Land area measuring 75 sq. yds. i.e 62.70 sq. mtrs., comprised of Khasra No. 184/4, situated in the area of Village Dundahera, Pargana-Loni, Tehsil & Distt. Ghaziabad, U.P. Bounded As: East: Plot of Heera Devi, West: Plot of
Common Automatic Lift, With 1/4th Share For Parking Space For One Car And One Two Wheeler On Stilt Floor Fitted With Electricity And Water Tap Connections Installed	1. Ram Sharma Mamidi, Near Bhatta No-4, Ranjit Colony, Within Mc Limits Of Two Thousand Five	Usha Devi, North: Passage 9 Ft., South:- House of Sovran Singh 16. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Md Yasir Khan, Mrs. Bibi Tarannum, Both At: Plot N 858 Block F Sec 3, Vaishali Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 20101 A/N - CT/CNE//CNE//A0000004351 JNDA Date: 05.03, 2025 Demand Natice Date: 18.04, 2025 Amount Outstanding : Bo, 1570012/, ap. op. 18.04, 2025 + interact +
Both Are In Running Conditions With Their Meters, Alongwith 1/4 Undivided Share,	2. Kirti Sharma Deed Bearing Wasika No-2044 Dated 6-6-2024 Recorded In The Brian Source Participation 13.05.2025	A/c No. GZ/GNR/GNRN/A000000435 NPA Date: 05-03-2025 Demand Notice Date: 18-04-2025, Amount Outstanding: Rs. 1570013/- as on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: A Free-Hold Residential Second Floor, With Roof Rights, Covered Area 30.82 Sq. Mtrs. built on Plot No. IIIF/987, Situated at Sector-3F, Residential Colony Mahagun Mall Vaishali, Tehsil & District Ghaziabad, U.P. Bounded As: East: House No. 988, West: House No. 986, North: Other Property.
Indivisible, Impartiable Proportionate Ownership Rights In The Said Plot Of Land With All Its Fixtures And Fittings Fitted Thereon, Alongwith All Amenities Facilities Provided	C/O. Ram Sharma Name Of Kirti Sharma W/O Ram Sharma. Bounded As Under:-East- House No-33-Pappu Nai, West-House No-34-A-Kalsi, North-Rasta, Couth Laura Cum Diat No. 20 A Dam Sharma	South:-Road 20 Ft. Wide. 17. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Mohit Sharma, Mrs. Nupur Sharma, Both At: H No. F-32, Ground Floor, Krishna Garden Govind Puram Ghaziabad
In The Said Building, Out Of Khasra No. 27/13 (Old No. 377), Situated In The Abadi Of "Old Gobind Pura", In The Area Of Village Khureji Khas, Illaga Shahdara, Delhi-110051,	South-House Cum Plot No-33-A-Ram Sharma. 13.02.2023 LAN :- 609107210510802 25.02.2025	UP-201013, , Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201013 A/c No. DL/SDR/SDRA/A000001102 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date: 24-02-2025, Amount Outstanding: Rs. 1514671/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. SF-2 (Corner Unit) on 2nd Floor without
And Bounded As: North: Gurudwara Gali South: Property Of Others East: Property	1. Arvind Kumar (Southern Portions) Plot No. 52, Area Measuring 250 Sq.yds., (Bo One Crore Effu	roof rights area measuring 632 sqft Built Upon Plot No. 64 area measuring 190 sqyds part of Khasra No. 1452 situated at Village Raispur Colony Known as Tulsi Vihar Paragna Dasna Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh BoundedAs: East: Road, West: Other unit, North: Road/ Building Entry, South:- Other unit 18. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Mohmmad Rahis, Mrs. Farin Farin, Mrs. Akhatri Begam. All At: H No 79 Gali No 1 Boudh Vihar. Near Green Hotel Part 4 Vijay
No. C-54 West: Portion Of The Said Property & Property No. C-52. Date: 14.05.2025 Authorised Officer	2 3. Sanjay Sharma Pargana Loni Distt Ghaziabad Bouned as Under:- East:- Plot No. Two Lakh Seventeen Thousand Six Hundred 14.05.2025	Nagar Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201009 A/c No. DL/DLS/DLSD/A000000453 NPA Date: 06-01-2025 Demand Notice Date : 22-03-2025, Amount Outstanding : Rs. 626735/- as on 22-03-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Property area measuring 50 sgyds part of Khasra No.
Place: DELHI Aditya Birla Housing Finance Limited	Travel Through Prop. 53, West:- way 80 Fts, North:- Remaining Portion, South:- Service Thirty Seven And Fifty	49min situated at Village Akbarpur Colony Known as Bodh Vihar Paragna Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Others, West: Property of Raju, North: Others, South:- Road 15 ft. wide.
	Arivind Kumar Four Paisa Only) as on 10.02.2025	 Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Mukesh Mukesh, Mrs. Kranti Devi, Both At: F 285 B Udal Nagar, F 285 B, Udal Nagar Ghaziabad, F 285 B, Udal Nagar Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201001 A/c No. DL/SHL/SHLM/A000000273 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02/2025, Demand Devision of Control of Control
FORM A	25.02.2025 Residential Upper Ground Floor Mig, Lhs Flat Without Roof Rights Rs. 23,42,852.66 (Rs.	Amount Outstanding : Rs. 1999347/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Property area measuring 200 sqyds part of Khasra No. 187A situated at Nangla Firoz Mohanpur Village Ator Paragna Jalalabad Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Road 12ft Wide, West: House of Devender, North: House of Vikas, South:- Gali 8ft Wide
PUBLIC ANNOUNCEMENT [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India	LAN :- 605438011684103 On Plot No 256, Comprised In Khasra No 303, Area Measuring 43.66 Twenty Three Lakh 3 1. Nishant Sharma On Plot No 256, Comprised In Khasra No 303, Area Measuring 43.66 Twenty Three Lakh Forty Two Thousand Sq.meter Situated At Residential Colony Akash Vihar (Akashwani), Forty Two Thousand Image: Structure of the stru	20. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Noor Mohammad, Mrs. Shahbaz Shahbaz, Both At: H Block H N 43 Shaheed Nagar, Sahibabad Ghaziabad, Metro, Ghaziabad , Uttar Pradesh , India - 201006 A/c No. DL/DEL/DWND/A000000936 NPA Date: 05-12-2024 Demand Notice Date : 12-03-2025, Amount Outstanding :
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]	2. Sunita Kumari Hadbast Village Sadullabad Pargana & Tehsil Loni Distt Ghaziabd Eight Hundred Fifty UP- Bounded As Under East:- Rasta 20 Ft, West:- Plot of Digar Two And Sixty Six	Rs. 4002158/- as on 07-03-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: PlotNo. H-43 area measuring 75 sqyds part of Khasra No. 542min/1 situated at Village Pasonda Colony Known as Shaheed Nagar Paragna Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Others, West: Others, North: Gali, South:- Others
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SHRIYA OVERSEAS PRIVATE LIMITED	North:- Plot No. 257 South:- Plot No. 256 Paisa Only) as on 10.02.2025	21. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Pankaj Garg, Mr. Lata Garg, Mr. Richa Garg, All At: Tower No-12, Flat No-103, First Floor, Tucson City Tdi, Kundli, Sonipat, Haryana-131028, Sonipat, Prakash Dairy, Metro, Sonipat, Haryana, India - 131028 A/c No. DL/JNK/JNKP/A000000144 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date:
RELEVANT PARTICULARS	Place : Yamunanagar, Haryana / Ghaziabad, Uttar Pradesh Authorized Officer.	24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 3441687/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat no. T-12/0103, on First Floor, area measuring 1520 sq. ft, in Tower T, project Known as "Tuscan Heights" in Tuscan City at TDI City, Kundli, Sonepat, Haryana.
Name of Corporate Debtor SHRIYA OVERSEAS PRIVATE LIMITED 2 Date of incorporation of Corporate Debtor 17.05.1991	Date : 13.05.2025 / 14.05.2025 SMFG INDIA HOME FINANCE CO. LTD.	22. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Pappu Pappu, Mr. Beena Beena, Both At: E - P Pocket A113 Gate No 4 Near Hansraj School Dilshad Garden , Dilshad Garden New Delhi, Metro, New Delhi, Delhi, India - 110095 A/c No. DL/MTG/MTNG/A000000137, CO/CPC/CPOF/A000004093 NPA Date: 05-12-2024
3. Authority under which Corporate Debtor is Registrar of Companies – New Delhi incorporated / registered	CAPRIGLOBAL CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED	Demand Notice Date : 17-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 2264907/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. 9/78 (MIG), Second floor, with roof right, area measuring 650 Sq. ft. i.e. 60.38 Sq. Mtrs., Situated in the village Pasonda, Shalimaar Garden Ex. 1, Tehsil & Distt. Ghaziabad, U.P. Bounded As: East: Road, West: Flat no. 10. North: Road, South:- Flat no.7.
Corporate Identity No. / Limited Liability U50300DL1991PTC044241 Identification No. of Corporate Debtor	Registered & Corporate Office :- 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Circle Office :- 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi – 110060	23. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Prince Kumar, Mrs. Rakhi Rakhi, Both At: H No 93, 80 Feet, Shalimar Garden, Hindon air field, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201004 A/c No. DL/LON/LONI/A000000576 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 2379852/- as
5. Address of the registered office and Registered Office: 4677, Gai Mohar Singh Jat.	DEMAND NOTICE	on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Flat No. G-1, on Ground Floor, (M.I.G.) Front side LHS Flat, super covered area 700 Sq. Ft. i.e. 65.02 Sq. Meter, built on freehold Plot No. C-1/108, Situated at Residential Colony D.L.F. Dilshad ExtnII, revenue estate of Village Brahmpur, alias Bhopura, Pargana Loni, Tehsil and Distt. Ghaziabad, U.P201005 Bounded As: East: Other Property No. C-1/107, West: Other Property No. C-1/109, North: Road 30 Ft.
principal office (if any) of Corporate Debtor Pahari Dhiraj, New Delhi - 110006 (As per MCA Records) Principal Office: G108A, RIICO Industrial Area, Sitapura,	Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The undersigned is the Authorised Officer of Capital Limited .(CGCL) under Securitisation And	wide, South:- Other Property
Jaipur, Rejasthan – 302022 (As per GST Portal) Section 2012 (As per GST Portal) Section 2012 (As per GST Portal) Section 2012 (As per GST Portal)	Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said.	24. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Sagar Kumar, Mrs. Saroj Sharma, Both At: Hs-574, Indrapuran Shipra Suncity Gaziyabad, Indrapuran Shipra Suncity Gaziyabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201014 A/c No. DL/MNR/TLPR/A000000014 NPA Date: 05-12-2024 Demand Notice Date : 17-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 1868845/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: 2nd Floor without roof rights Built Upon Plot No. B-5 area
respect of Corporate Debtor 14.05.2025)	Act, calling upon the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) to pay to CGCL, within 60 days from the publication	measuring 100 sqyds part of Khasra No. 984 situated at Village Rajapur Colony Known as Bank Enclave, Paragna Dasna Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Others, West: Rasta 20 ft. wide, North: Park, South:-Plot no. B-1/4
7. Estimated date of closure of inscivency resolution process 05.11.2025 (180th day from the inscivency commencement date i.e.09.05.2025)	of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further applicable interest from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of	25. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Samrat Samrat, Mr. Richa Richa, Both At: B-73, Gali No.2, Sandeep Enclave, Akbarpur Bherampur, Ghaziabad, Bala Jee Mandir Budh Vihar Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201001 A/c No. DL/SDR/SDRA/A000000735 NPA Date: 05-12-2024 Demand Notice Date : 17-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 3248521/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Plot No. B-93 area measuring
Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Sourabh Malpani Regn. No.:IBBI/IPA-001/IP-P01265/2018-2019/12047	the loan, the following assets have been mortgaged to CGCL by the said Borrower(s) respectively. S. Name of the Borrower Demand Notice Description of secured asset	100 sqyds part of Khasra No. 112 situated at Village Akbarpur Bahrampur Colony Known as Ashu Enclave, Paragna Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Plot of Others, West: Plot of Others, North: Rasta 15 ft. wide, South:-Rasta 15 ft. wide
Resolution Professional AFA Valid Upto : 31.12.2025 9. Address & email of the interim resolution Add.: Guru Kripa Plot No. 93, Neelkanth Colony,	N. (s)/ Guarantor(s) Date and Amount (immovable property)	26. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Shankar Kumar, Mrs. Babita Kumar, Both At: Flat No.1, Second Floor M-16, Ghaziabad, Pratap Vihar, Pratap Vihar, Vijay Nagar, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201009 A/c No. DL/DEL/PAND/A00001499 NPA Date: 06-01-2025 Demand Notice Date : 20-03-2025, American Structure Content of Conte
professional, as registered with the board Queens Road Jaipur, Rajasthan -302021 Email : malpanijpr@gmail.com	I. (Loan Account No. LNMEPU4000085252 (Old) 80400005779349 (New) 08/05/2025 LNMEPU4000113252 All that Piece and Parcel of residential Property having land and building, land area measuring 150 Sq. Yds. (i.e., 125.41 Sq. Mts.), being Plot No. A-	Amount Outstanding : Rs. 2356500/- as on 19-03-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. SF-1 on 2nd Floor with roof rights area measuring 550 sqft Built Upon Plot No. M/16 situated at BlockM, Sector-12, Pratap Vihar Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Entry, West: Flat no SF-04, North: Others, South:- Flat no SF-02
10. Address and e-mail to be used for Add.: Guru Kripa Plot No: 93, Neelkanth Colony,	(Old) 80300005780831 (New) (PUSA ROAD (As on 95, Out of Khasra No. 20, situated in the abadi of Amar Vihar, Khora Branch) Mr. Dishant Sharma (Borrower) Mrs. 07/05/2025) Colorry, Pargana Loni, Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh -	27. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Shashank, Mrs. Sabita Yadav, Mr. Amaresh Amaresh, All At: Plot No-696 Flat No-c1 Shakti Khand Near Goneka Public School Ghaziabad-201001 A/c No. DL/MNR/KCPR/A000000096 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 3103297/- as
correspondence with the Interim Queens Road Jaipur, Rajasthan -302021 Resolution Professional Email : cirp.shriyaoverseas@gmail.com	Kanta Sharma (Co-Borrower), Mr. Deepak Gupta (Guarantor) 201307 Bounded As: East By: Road 20 ft., West By: Plot of Others, North By: House of Sh. Sharikh, South By: House of Sh. Dinesh	on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Build-up Flat no. C-1 at Second Floor MIG (RHS) front Side, without Roof rights having two bedrooms, one Drawing / Dining Two Toilet, One Kitchen and Balcony having total covered area of 45 sq yds only constructed Plot no Shakti Khand-III/696, Indira Puram, Ghaziabad Bounded As: East: Plot No. 627, West: Road 30 ft wide, North: Plot No. 695, South:- Plot No. 697.
Last date for submission of claims 28.05.2025 (14th day from the date of receipt of order i.e. 14.05.2025)	2. (Loan Account No. LNMEAZD000018234 (Old) 08/05/2025 All Piece and Parcel of the Property having land and building bearing	 Gnaziabad Bounded AS: East: Plot No. 627, West: Road 30 ft Wide, North: Plot No. 695, South:- Plot No. 697. 28. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Sunny Singh, Mr. Soni Soni, Both At: C-67 Flat No. 62, Shalimar Garden Extension-II, Sahibabad, Ghaziabad, U.P. Near Triveni Dham Mandir, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201005 A/c No. DL/MTG/MTNG/A000000129 NPA Date: 24-02-2025 Demand Notice Date: 24-02-2025,
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) Not Applicable of sub-section (6A) of section 21, ascertained	Xi Piece and Pace of the Property naming faile and obliging dealing So300005498555 (New) (DELHI Branch) M/s. Vidhyanjali Memorial Siksha Samiti Through its (As on 139.34 Sq. Mts.), Out of Khasra No. 764 min, Village Karhera, Pargana -	Amount Outstanding : Rs. 1871875/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. L.F2(L.I.G), First Floor, Rear Side, LHS, super area 51.09 Sq. Mtr., situated on plot No. A-83 Shalimar Garden extension No2 Hadbast, Village Pasonda, Pargana, Loni, Distt. Ghaziabad, (U.P.) Bounded As:
by the Interim Resolution Professional 13, Names of insolvency professionals identified Not Applicable	President (Borrower) Mrs.Usha Tomar, 07/05/2025) Loni, Tehsi and District Ghaziabad, Ultar Pradesh - 201007. Boundaries. Mr.Padam Singh Tomar (Co-Borrower), As: East : Rasta 18 Ft. Wide, West : Plot No. 58, North : Gall No. 10 Ft.	East: Service Lane, West: Road 40 Ft. wide, North: Plot No. 84-A, South:- Plot No. 82-A. 29. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Suraj Panjeta, Mr. Ankita Rani, Both At: Village Barachpur Kurukshetra 136132, Kurukshetra, Rural, Thanesar, Haryana, Judia - 136132, LA/, No. HB/KBN/4000000047, NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date: 24-02-2025 Amount Outstanding : Ps. 308987/, as on 18-02-
to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class)	Wide, South : Plot No. 32	India - 136132 A/c No. HR/KRN/KARN/A000000047 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date: 24-02-2025, Amount Outstanding: Rs. 3089867/- as on 18-02- 2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Property measuring 0K-11M-01S being 100/33669 share out of property measuring 187K-01M which is comprised in Khewat No. 81, Khatoni No. 115-131, Khasra No. 19, Killa No. 5(0-17) Kitte-35 situated Vill. Badachpur, Tehsil Ladwa, District Kurukshetra Bounded As: East:
14. (a) Relevant forms and (a) Web Link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads	3. (Loan Account No. LNMEKKD000080099 (Old) 08/05/2025 All that Piece and Parcel of Freehold residential House built up on land 80400005866930 (New) (KARKARDOOMA Rs. 28,86,750 area admeasuring 105 sq. Yds., Le 87.80 sq. Mirs., out of area	65' and Street, West: 65', Street and Plot of Avtar Singh, North: 50' and house of Gulab Singh, South:- 43' and way. 30. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Vishal Kumar Kori, Mrs. Neha Rani Both At: Hn 151 A Gali No 3a, Old Arya Nagar, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India -
(b) Details of authorized representatives (b) Not Applicable are available at:	Branch) Mr. Rohit (Borrower) Mrs. Ravita R (As on admeasuring 0.00878 hector out of Ghata No. 89, Situated at Village- (Co-Borrower), 07/05/2025) Habibpur, Pargana Dadri, Tehsil & Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar	201001 A/c No. DL/DEL/DWND/A000000887 NPA Date: 05-12-2024 Demand Notice Date: 17-02-2025, Amount Outstanding: Rs. 2232309/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: 2nd Floor (RHS) area measuring 479 sqft Built Upon Plot No. B-181 area measuring 145.53 sqyds part of Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Road
Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Division Bench – VI, New Delhi has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of Shriya Overseas	Pradesh-201306: Bounded As: East By: Rasta & ft. West By: Plot of Rajmai, North By: Plot of Virender, South By: Plot Of Ravinder	 Knasra No. 1336 situated at Village Dundaneda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Jensii and District Gnaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Road 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur, Near Stone Bhatti, Sec 63 Noida, Uttar Pradesh, India - 201301
	4. (Loan Account No. LNMEAZD000035538 (Old) 08/05/2025 All Piece and Parcel of the property bearing No. 130/2, Area Admeasuring	A/c No. DL/DLS/DLSD/A000000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: A Residential Plot No.60, Area Measuring 133,09 Sg. Yds. Le. 111,28 Sg. Mtrs Khasra No.96/1 Mi. Situated At Unione
Private Limited on 09th May 2025. The creditors of Shriva Overseas Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with	80400005503110 (New) (DELHI Branch) M/s. Rs. 22,32,729 43.47 Sq Mtsile. 52 Sq Yds.outof Rect. No. 12, Killa No. 27/2, Third Floor	Residence, Village-akbarpur Bherampur, Pargana-Ioni, Teshil And Dist- Ghaziabad (u.p) Bounded As: East: Plot No. 59, West: Plot No. 61, North: - Rasta 30 Ft. Wide, South:- Old Awadi
The creditors of Shriya Overseas Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 28.05.2025 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry	Sanchit Tiles and Sanitation Through its (As on with roof right up to the last storey, situated in the Abadi of Chandu Park, in	
The creditors of Shriya Overseas Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 28.05.2025 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may	Sanchit Tiles and Sanitation Through its Proprietor (Borrower) Mr. Dharmendra Singh, Mrs.Sarita A (Co-Borrower), Mrs. Sarita A (Co-Borrower), Mrs. Sarit	32. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A000000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C. Third Floor (without Roof Rights). EWS, area 28.56 sg. meters. Situated at
The creditors of Shriya Overseas Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 28.05.2025 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.	Sanchit Tiles and Sanitation Through Its Proprietor (Borrower) Mr. Dharmendra Singh, Mrs.Sarita A (Co-Borrower), Mrs.Sarita A (Co	32. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A000000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C, Third Floor (without Roof Rights), EWS, area 28.56 sq. meters, Situated at Residential Colony, Sector-1, Kamna Vaishali, Tehsil and District-Ghaziabad. UP. Bounded As: East: Bhawan No. 62 C, West: Open on Ground, North: - Bhawan No. 70 C, South:- Bhawan No. 72 C
The creditors of Shriya Overseas Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 28.05.2025 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.	Sanchit Tiles and Sanitation Through Its Proprietor (Borrower) Mr. Dharmendra Singh, Mrs.Sarita A (Co-Borrower), (As on 07/05/2025) with roof right upto the last storey_situated in the Abadi of Chandu Park, in the area of Vilage Khureji Khas, Iliaqa Shahdara East Delhi - 110051. Boundaries As: East : Others Plot, West : Gali 15 Ft, Wide., North : Plot No. 133 A, South : Property of Others If the said Borrowers shall fail to make payment to CGCL as aforesaid, CGCL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from	 Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A000000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C, Third Floor (without Roof Rights), EWS, area 28.56 sq. meters, Situated at Residential Colony, Sector-1, Kamna Vaishali, Tehsil and District-Ghaziabad. UP. Bounded As: East: Bhawan No. 62 C, West: Open on Ground, North: - Bhawan No. 70 C, South: Bhawan No. 72 C The above mentioned Borrowers/ Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balance outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESIAct.
The creditors of Shriya Overseas Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 28.05.2025 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Sd/- Sourabh Malpani Interim Resolution Professional for Shriya Overseas Private Limited	Sanchit Tiles and Sanitation Through Its Proprietor (Borrower) Mr. Dharmendra Singh, Mrs.Sarita A (Co-Borrower), (As on 07/05/2025) with roof right upto the last storey_situated in the Abadi of Chandu Park, in the area of Vilage Khureji Khas, Illaqa Shahdara East Delhi - 110051. Boundaries As: East : Others Plot, West : Gali 15 Ft. Wide., North : Plot No. 133 A, South : Property of Others If the said Borrowers shall fail to make payment to CGCL as aforesaid, CGCL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of CGCL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Actor Rules made the reunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.	32. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A000000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C, Third Floor (without Roof Rights), EWS, area 28.56 sq. meters, Situated at Residential Colony, Sector-1, Kamna Vaishali, Tehsil and District-Ghaziabad. UP. Bounded As: East: Bhawan No. 62 C, West: Open on Ground, North: - Bhawan No. 70 C, South:- Bhawan No. 72 C The above mentioned Borrowers/ Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balance
The creditors of Shriya Overseas Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 28.05.2025 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Sd/-Sourabh Malpani	Sanchit Tiles and Sanitation Through Its Proprietor (Borrower) Mr. Dharmendra Singh, Mrs. Sarita A (Co-Borrower), (As on 07/05/2025) with roof right upto the last storey .situated in the Abadi of Chandu Park, in the area of Vilage Khureji Khas, Illaqa Shahdara East Delhi - 110051. Boundaries As: East : Others Plot, West : Gali 15 Ft, Wide., North : Plot No. 133A, South : Property of Others If the said Borrowers shall fail to make payment to CGCL as aforesaid, CGCL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of CGCL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Actor Rules made the reunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. Place : Delhi/NCR Date : 16/05/2025 Sd'- (Authorised Officer) For Capri Global Capital Limited (CGCL)	32. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A000000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C, Third Floor (without Roof Rights), EWS, area 28.56 sq. meters, Situated at Residential Colony, Sector-1, Kamna Vaishali, Tehsil and District- Ghaziabad. UP. Bounded As: East: Bhawan No. 62 C, West: Open on Ground, North: - Bhawan No. 70 C, South:- Bhawan No. 72 C The above mentioned Borrowers/ Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balance outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESI Act. Date: 16.05.2025, Place: Ghaziabad
The creditors of Shriya Overseas Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 28.05.2025 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Sd/- Sourabh Malpani Interim Resolution Professional for Shriya Overseas Private Limited Date : 16.05.2025 Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01265/2018-2019/12047	Sanchit Tiles and Sanitation Through Its Proprietor (Borrower) Mr. Dharmendra Singh, Mrs.Sarita A (Co-Borrower), (As on 07/05/2025) with roof right upto the last storey_situated in the Abadi of Chandu Park, in the area of Vilage Khureji Khas, Illaqa Shahdara East Delhi - 110051. Boundaries As: East : Others Plot, West : Gali 15 Ft. Wide., North : Plot No. 133 A, South : Property of Others If the said Borrowers shall fail to make payment to CGCL as aforesaid, CGCL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of CGCL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Actor Rules made the reunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. Place : Delhi/NCR	32. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A000000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C, Third Floor (without Roof Rights), EWS, area 28.56 sq. meters, Situated at Residential Colony, Sector-1, Kamna Vaishali, Tehsil and District-Ghaziabad. UP. Bounded As: East: Bhawan No. 62 C, West: Open on Ground, North: - Bhawan No. 70 C, South:- Bhawan No. 72 C The above mentioned Borrowers/ Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balance outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESIAct. Date: 16.05.2025, Place: Ghaziabad

- 1	 seventive that in the right, in which we we we want of the state	a manufactor and a second to and tabalitient attre really are reserting assess that a second the gages to
1	CGHFL by the said Borrower(s) respectively.	

S. N.	Name of the Borrower (s)/ Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of secured asset (immovable property)
1.	(Loan Account No. LNHL30455LX300010185 (OId) 5120000979996 (New) LNHE30455LX300010186 (Old) 53000000993507 (New) (MEERUT Branch) Mr. Sameer (Borrower) Mrs.Aysha, Mr.Saleem Ansari Alias Saleem Ahamad, Mr.Shavej (Co-Borrower)	08/05/2025 Rs. 60,79,275 (As on 07/05/2025	All That Piece and Parcel of property having land and building being Residential House No. 74/1, having an area of 130.50 Sq. Yds. i.e., 109.12 Sq. Mts., part of Khasra No. 4004, Mohalla Kareem Nagar, Hapur Road, Meerut City, Tehsil & District Meerut, Uttar Pradesh - 250002 Bounded As Follows: East: House of Akhtar, West: Rasta 20 Ft. Wide, North: House of Naeem Malik, South: Rasta 20 Ft. Wide
2.	(Loan Account No. LNHE30017LX300015307 (Old) 53000000998357 (New) (AGRA Branch) Mr. Nitin Gupta (Borrower) Mrs.Meena Gupta, Mrs.Sunena Gupta (Co-Borrower)	Rs. 35,43,676	All that Piece and Parcel of property having land and building being a House Constructed on Khasra No. 1082, land Area Admeasuring 82.22 Sq. Yds. (i.e., 68.70 Sq. Mts.), Waka Shiv Kunj, Balkeshwar, Mauza - Ghatwashan, Hari Parwat Ward, Tehsil & Disti Agra, Uttar Pradesh - 282004 Bounded As:- East: Property of Vimla Devi, West: Remaining Part of Plot, North: House of Upadhyay Ji, South: Gali 20 Ft. wide
3.	(Loan Account No. LNHE30444LX300011434 (Old) 53100000981452 (New) (JEWAR Branch) Mr. Ajitpal (Borrower) Mrs. Suman (Co-Borrower)		All that Piece and Parcel of the property Residential House part of Khet No. 624 S situated at Shikarpur – Jahangrabad Road at Village Lohra Pargana & Tehsil Shikarpur, District Bulandshehr, Uttar Pradesh - 203395. Area Admeasuring - 151.67 Sq.Mtrs. Bounded As:- East Rasta 3.65 Mtrs., West: House of Dragpal, North: Rasta 7.50 Mtrs., South: House of Ramesh

	HE IMMOVABLE PROPERTY	tot	the charge of "SMHFC" for an	n amount as mentic	ned nerein under	r and interest thereon.	NG	X8. 15.5	Amount Outstanding : Rs. 2005/78/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Flat No. 1205-A, on 12Ath Floor, Blo C, super area measuring 1075 Sq. Ft. i.e. 99.87 Sq. Meters, in Group Housing Residential Complex namely "Gardenia Square" GH Plot No. 6, in the township known
	oor (Without Roof Rights) Upto Ceiling Level Of		. Name of the Borrower(s)	De	escription of Sec		Demand Notice	Date of	"Crossings Republik", situated at VillageDundahera, Ghaziabad, U.P. BoundedAs: East: Open Below, West: Flat No. 1206/A, North: Open Below, South:- Entry
	a Measuring 130 Sq. Yds. I.E. 108.69 Sq. Mtrs.,	No			(Immovable P		Date & Amount	Possession	15. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Manoj Kumar, Mr. Nirmla Manoj Kumar, Both At: H No-107, Gali No-2, Shanti Nagar, Near NH-24, Ghaziabad, Sha
	Sq. Mtrs., Consisting Of Three + One Room Set					operty Bearing House No-B		- 18 19	Nagar, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201009 A/c No. DL/KRB/KRBH/A000000391 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amo Outstanding : Rs. 1452217/- as on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Plot of Land area measuring 75 sq. vds. i.e. 62.70 sq. mt
	ase Are Common With Common Entrance With					asuring 123 Sq Yards(100 Sc	Rs. 20,92,538.79 (Rs.		Outstanding: Rs. 1452217/- as on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Plot of Land area measuring 75 sq. yds. i.e 62.70 sq. mt comprised of Khasra No. 184/4, situated in the area of Village Dundahera, Pargana-Loni, Tehsil & Distt. Ghaziabad, U.P. Bounded As: East: Plot of Heera Devi, West: Plot
	are For Parking Space For One Car And One					mmercial), Situated At Mauja	Twenty Lakh Ninety	~	Usha Devi, North: Passage 9 Ft., South:- House of Sovran Singh
	Electricity And Water Tap Connections Installed					Colony, Within Mc Limits O	Two Thousand Five	10.05.0005	16. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Md Yasir Khan, Mrs. Bibi Tarannum, Both At: Plot N 858 Block F Sec 3, Vaishali Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201 A/c No. GZ/GNR/GNRN/A000000435 NPA Date: 05-03-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1570013/- as on 18-04-2025 + intere
	Their Meters, Alongwith 1/4 Undivided Share,	11				ict-Yamunanagar As Per Sale	Hundred Thirty Eight	13.05.2025	Legal Charges Details of Immovable Property: A Free-Hold Residential Second Floor, With Roof Rights, Covered Area 30.82 Sq. Mtrs. built on Plot No. IIIF/987, Situa
	wnership Rights In The Said Plot Of Land With					ed 6-6-2024 Recorded In The ma. Bounded As Under:- East	& Paise Seventy		at Sector-3F, Residential Colony Mahagun Mall Vaishali, Tehsil & District Ghaziabad, U.P. Bounded As: East: House No. 988, West: House No. 986, North: Other Prope
	eon, Alongwith All Amenities Facilities Provided					e No-34-A-Kalsi, North- Rasta	Nine Only) as on		South:-Road 20 Ft. Wide.
Ŭ	5. 27/13 (Old No. 377), Situated In The Abadi Of			South-House Cum	,	,	13.02.2025		17. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Mohit Sharma, Mrs. Nupur Sharma, Both At: H No. F-32, Ground Floor, , Krishna Garden Govind Puram Ghazial UP-201013 , Metro , Ghaziabad , Uttar Pradesh , India - 201013 A/c No. DL/SDR/SDRA/A000001102 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-20
	ge Khureji Khas, Illaga Shahdara, Delhi-110051,		LAN :- 609107210510802	ooun nodee oun	riotito oo Arnan	l'onarma.	25.02.2025	1 1	Amount Outstanding : Rs. 1514671/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. SF-2 (Corner Unit) on 2nd Floor with
	Gali South: Property Of Others East: Property		1 Arvind Kumar				Rs. 1,52,17,637.54-		roof rights area measuring 632 sqft Built Upon Plot No. 64 area measuring 190 sqyds part of Khasra No. 1452 situated at Village Raispur Colony Known as Tulsi Vi Paragna Dasna Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh BoundedAs: East: Road, West: Other unit, North: Road/Building Entry, South:- Other unit
No. C-54 West: Portion Of The Said Pr			2 Abbilacha			rea Measuring 250 Sq.yds.	(Rs. One Crore Fifty		18. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Mohmmad Rahis, Mrs. Farin Farin, Mrs. Akhatri Begam, AllAt: H No 79 Gali No 1 Boudh Vihar, Near Green Hotel Part 4 V
						m Enclave Village Pansonda ed as Under:- East:- Plot No	Two Lakh Seventeen	14.05.0005	Nagar Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201009 A/c No. DL/DLS/DLS/DLS/DA00000453 NPA Date: 06-01-2025 Demand Notice Date : 22-03-20
Date: 14.05.2025	Authorised Officer	1 2	4. W/S. A.K Tour and			ining Portion, South:- Service	Thousand Six Hundred		Amount Outstanding : Rs. 626735/- as on 22-03-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Property area measuring 50 sqyds part of Khasra 49min situated at Village Akbarpur Colony Known as Bodh Vihar Paragna Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Others, West: Propert
Place: DELHI	Aditya Birla Housing Finance Limited		Traver Through Prop.	Lane 12 Fts.,	ris, North- nemd	aning Fortion, South Service	Thirty Seven And Filly		Raju, North: Others, South:- Road 15ft. wide.
3. 1	0.640		Arivind Kumar	Lano IL I to.,			Four Paisa Only) as	;	19. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Mukesh Mukesh, Mrs. Kranti Devi, Both At: F 285 B Udal Nagar, F 285 B, Udal Nagar Ghaziabad, F 285 B, Udal Na
			1 2				on 10.02.2025		Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201001 A/c No. DL/SHL/SHLM/A000000273 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-20
FC	DRM A		1	De side stiel Une en (Line Flat With and Deef District	25.02.2025		Amount Outstanding : Rs. 1999347/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Property area measuring 200 sqyds part of Kha No. 187A situated at Nangla Firoz Mohanpur Village Ator Paragna Jalalabad Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Road 12ft Wide, West: Ho
PUBLIC AN	NNOUNCEMENT					Lhs Flat Without Roof Rights		5.	of Devender, North: House of Vikas, South:- Gali 8ft Wide
International sector statement and the sector of the se	AGE DECEMBER 11D FORMER DEFINITION CONTRACTOR AND		LAN - 005450011004105	On Plot No 256, Cor Sa motor Situated /	Tiprised in Knasra	No 303, Area Measuring 43.66 ony Akash Vihar (Akashwani)	5 Twenty Three Lakh Forty Two Thousand		20. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Noor Mohammad, Mrs. Shahbaz Shahbaz, Both At: H Block H N 43 Shaheed Nagar, Sahibabad Ghaziabad, Me
	olvency and Bankruptcy Board of India	3	1. Nisnant Sharma			& Tehsil Loni Distt Ghaziabo		14.05.2025	Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201006 A/c No. DL/DEL/DWND/A000000936 NPA Date: 05-12-2024 Demand Notice Date: 12-03-2025, Amount Outstandir Rs. 4002158/- as on 07-03-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Plot No. H-43 area measuring 75 sqyds part of Khasra No. 542min/1 situa
	or Corporate Persons) Regulations, 2016]					a 20 Ft. West:- Plot of Diga			at Village Pasonda Colony Known as Shaheed Nagar Paragna Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Others, West: Others, North: C
FOR THE ATTENTION	N OF THE CREDITORS OF			North:- Plot No. 257		,	Paisa Only) as on		South:-Others
SHRIYA OVERSE	AS PRIVATE LIMITED					200	10.02.2025	1	21. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Pankaj Garg, Mr. Lata Garg, Mr. Richa Garg, All At: Tower No-12, Flat No-103, First Floor, Tucson City Tdi, Kundli, Sonip Haryana-131028, Sonipat, Prakash Dairy, Metro, Sonipat, Haryana, India - 131028 A/c No. DL/JNK/JNKP/A000000144 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Da
RELEVAN	IT PARTICULARS		Ac					Sd/-	24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 3441687/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat no. T-12/0103, on First Floor, a
1. Name of Corporate Debtor	SHRIYA OVERSEAS PRIVATE LIMITED		ce : Yamunanagar, Haryana /	Ghaziabad, Uttar P	radesh			horized Officer,	measuring 1520 sq. ft, in Tower T, project Known as "Tuscan Heights" in Tuscan City at TDI City, Kundli, Sonepat, Haryana.
	17.05.1991	Dat	te: 13.05.2025 / 14.05.2025				SMFG INDIA HOME FINA	ANCE CO. LTD.	 Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Pappu Pappu, Mr. Beena Beena, Both At: E - P Pocket A113 Gate No 4 Near Hansraj School Dilshad Garden, Dilshad Garden New Delhi, Metro, New Delhi, India - 110095 A/c No. DL/MTG/MTNG/A000000137, CO/CPC/CPOF/A000004093 NPA Date: 05-12-20
									Demand Notice Date : 17-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 2264907/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. 9
 Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered 	Registrar of Companies – New Deini	1	APRIGLOBAL CAL	PRT GLOBA	AL CAPIT	AL LIMITED			[(MIG), Second floor, with roof right, area measuring 650 Sq. ft. i.e. 60.38 Sq. Mtrs., Situated in the village Pasonda, Shalimaar Garden Ex. 1, Tehsil & Distt. Ghaziabad, U
	115000001 4004050041044		THE R WE NEED BOOM BURNEY BURNEY			Peninsula Business Park, Senap	ali Banat Mara Louns Baral	¥.	Bounded As: East: Road, West: Flat no. 10, North: Road, South:- Flat no.7. 23 Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Prince Kumar, Mrs. Rakhi, Rakhi, Both At: H No 93, 80 Feet, Shalimar Garden, Hindon air field, Metro, Ghaziab
4. Corporate Identity No. / Limited Liability	U50300DL1991PTC044241					reninsula business raik, seriaja usa Road, New Delhi – 110060	ali dapat Maig, cowat Falai	e.	Uttar Pradesh, India - 201004 A/c No. DL/LON/LON/LON/LON/A000000576 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 2379852/
Identification No. of Corporate Debtor				arroom of our of our		and the second			on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Flat No. G-1, on Ground Floor, (M.I.G.) Front side LHS Flat, super covered a
	Registered Office: 4677, Gali Mohar Singh Jat.				DEMAND				700 Sq. Ft. i.e. 65.02 Sq. Meter, built on freehold Plot No. C-1/108, Situated at Residential Colony D.L.F. Dilshad ExtnII, revenue estate of Village Brahmpur, a Bhopura, Pargana Loni, Tehsil and Distt. Ghaziabad, U.P201005 Bounded As: East: Other Property No. C-1/107, West: Other Property No. C-1/109, North: Road 30
principal office (if any) of Corporate Debtor	Pahari Dhiraj, New Delhi - 110006 (As per MCA Records)		nder Section 13(2) of the Securitisa						wide, South:- Other Property
	Principal Office: G109A, RIICO Industrial Area, Sitapura, Jaipur, Rajasthan – 302022 (As per GST Portal)		curity Interest (Enforcement) Rule construction Of Financial Assets A						24. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Sagar Kumar, Mrs. Saroj Sharma, Both At: Hs-574, Indrapuran Shipra Suncity Gaziyabad, Indrapuran Shipra Sun
6. Insolvency commencement data in		52	id Act read with Rule 3 of the Securi	ity Interest (Enforceme	ant) Rules, 2002, the	Authorised Officer has issued De	mand Notices under section	n 13(2) of the said	Gaziyabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201014 A/c No. DL/MNR/TL/PR/A000000014 NPA Date: 05-12-2024 Demand Notice Date: 17-02-2025, Amo Outstanding: Rs. 1868845/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: 2nd Floor without roof rights Built Upon Plot No. B-5 a
respect of Corporate Debtor	09.05.2025 (Order obtained from NCLT website on 14.05.2025)		t, calling upon the following Borrow						measuring 100 sovds part of Khasra No. 984 situated at Village Rajapur Colony Known as Bank Enclave. Paragna Dasna Tehsil and District Ghaziabad. Uttar Prad
	and the second	an	e also given below. In connection w	ith above, Notice is he	reby given, once aga	in, to the said Borrower(s) to pay	to CGCL, within 60 days fro	om the publication	Bounded As: East: Others, West: Rasta 20 ft. wide, North: Park, South:- Plot no. B-1/4
 Estimated date of closure of insolvency resolution process 	05.11.2025 (180th day from the insolvency commencement date i.e.09.05.2025)		this Notice, the amounts indicated						25. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Samrat Samrat, Mr. Richa Richa, Both At: B-73, Gali No.2, Sandeep Enclave, Akbarpur Bherampur, Ghaziabad, Bala Mandir Budh Vihar Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201001 A/c No. DL/SDR/SDRA/A000000735 NPA Date: 05-12-2024 Demand Notice Da
	Sourabh Malpani		alization, payable under the loan ag				forrower(s). As security for o	due repayment of	17-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 3248521/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Plot No. B-93 area measur
8 Name and Registration number of the	Regn. No.:IBBI/IPA-001/IP-P01265/2018-2019/12047		e loan, the following assets have be	en mongageo to COO		er(s) respectively,			100 sgvds part of Khasra No. 112 situated at Village Akbarpur Bahrampur Colony Known as Ashu Enclave. Paragna Loni Tehsil and District Ghaziabad. Uttar Prad
insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	AFA Valid Upto : 31.12.2025	1000	Name of the Borrower		Demand Notice		Description of secur		Bounded As: East: Plot of Others, West: Plot of Others, North: Rasta 15 ft. wide, South:-Rasta 15 ft. wide
I Dected Service of a subserved Her	AVENUES CONTRACTOR AND A CONTRACTOR AND	Ν.	(s)/ Guarantor(s)		Date and Amount	6	(immovable prop	perty)	26. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Shankar Kumar, Mrs. Babita Kumar, Both At: Flat No. 1, Second Floor M-16, Ghaziabad, Pratap Vihar, Pratap Vihar, Vihar, Vihar, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201009 A/c No. DL/DEL/PAND/A000001499 NPA Date: 06-01-2025 Demand Notice Date : 20-03-20
 Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board 	Add. Guru Kripa Plot No. 93, Neelkanth Colony, Queens Road Jaiour, Rajasthan -302021	1.	(Loan Account No. LNMEPU		08/05/2025	All that Piece and Parcel of re-			Amount Outstanding : Rs. 2356500/- as on 19-03-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. SF-1 on 2nd Floor with roof rights a measuring 550 sqft Built Upon Plot No. M/16 situated at BlockM, Sector-12, Pratap Vihar Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Entry, West: I
proroaanniai, aa rogialarou mur ine voeru	Email : malpanijpr@gmail.com	131	80400005779349 (New) LN		Rs. 31,37,781	land area measuring 150 Sq. Y			measuring 550 sqft Built Upon Plot No. M/16 situated at BlockM, Sector-12, Pratap Vihar Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Entry, West: I Ino SF-04, North: Others, South:- Flat no SF-02
where the latency provides the set of the second states of	1 11 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		(Oid) 80300005780831 (New		(As on	95, Out of Khasra No. 20, si			27. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Shashank, Mrs. Sabita Yadav, Mr. Amaresh Amaresh, All At: Plot No-696 Flat No-c1 Shakti Khand Near Goneka Pu
10. Address and e-mail to be used for	Add.: Guru Kripa Plot No. 93, Neelkanth Colony,		Branch) Mr. Dishant Sharma		07/05/2025)	Colony, Pargana Loni, Tehsil			School Ghaziabad-201001 A/c No. DL/MNR/KCPR/A000000096 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 3103297/-
correspondence with the Interim Resolution Professional	Queens Road Jaipur, Rajasthan -302021		Kanta Sharma (Co-Borrower),	Mr. Deepak Gupta	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	201307 Bounded As: East By:			on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Build-up Flat no. C-1 at Second Floor MIG (RHS) front Side, without Roof rights having bedrooms, one Drawing / Dining Two Toilet, One Kitchen and Balcony having total covered area of 45 sq yds only constructed Plot no Shakti Khand-III/696, Indira Pura
	Email : cirp.shriyaoverseas@gmail.com		(Guarantor)			By: House of Sh. Sharikh, Sou	in By: House of Sn. Dinesh	a ::	Ghaziabad Bounded As: East: Plot No. 627, West: Road 30 ft wide, North: Plot No. 695, South:- Plot No. 697.
11. Last date for submission of claims	28.05.2025 (14th day from the date of receipt of order i.e. 14.05.2025)	-						ANTIN-LUCIPACIÓN MORT	28. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Sunny Singh, Mr. Soni Soni, Both At: C-67 Flat No. G2, Shalimar Garden Extension-II, Sahibabad, Ghaziabad, U.P. N
12. Classes of creditors, if any, under clause (b)	- Charles and a support of the	2.	(Loan Account No. LNMEAZ		08/05/2025	All Piece and Parcel of the P			Triveni Dham Mandir, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201005 A/c No. DL/MTG/MTNG/A000000129 NPA Date: 24-02-2025 Demand Notice Date: 24-02-20 Amount Outstanding : Rs. 1871875/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. L.F2(L.I.G), First Floor, Rear Side, LI
of sub-section (6A) of section 21, ascertained	Not Applicable		80300005498555 (New) (DEI		I I I DOMAG JOOD CLUB CO	Freehold Plot No. 31, land a			super area 51.09 Sq. Mtr., situated on plot No. A-83 Shalimar Garden extension No2 Hadbast, Village Pasonda, Pargana, Loni, Distt. Ghaziabad, (U.P.) Bounded
by the Interim Resolution Professional			Vidhyanjali Memorial Siksha: President (Borrower) M		(As on 07/05/2025)	139.34 Sq. Mts.), Out of Khasi Loni, Tehsil and District Ghazi:			East: Service Lane, West: Road 40 Ft. wide, North: Plot No. 84-A, South:- Plot No. 82-A.
13. Names of insolvency professionals identified	Nat Applicable		Mr.Padam Singh Tomar (Co-B		unusieurs	As: East : Rasta 18 Ft. Wide,			29. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Suraj Panjeta, Mr. Ankita Rani, Both At: Village Barachpur Kurukshetra 136132, Kurukshetra, Rural, Thanesar, Haryan India - 136132 A/c No. HR/KRN/KARN/A000000047 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 3089867/- as on 18-
to act as authorised representative of creditors			mitr auantonign tomai (60-b	energenes),		Wide, South ; Plot No. 32	maac. Flocing, 30, Horan-	- G0E 00, 10 CE	2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Property measuring 0K-11M-01S being 100/33669 share out of property measuring 187K-01M which
in a class (three names for each class)		100			0.00000000		on an	CHORNELS CONTRACTOR	2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Property measuring 0K-11M-01S being 100/33669 share out of property measuring 187K-01M which comprised in Khewat No. 81, Khatoni No. 115-131, Khasra No. 19, Killa No. 5(0-17) Kitte-35 situated Vill, Badachpur, Tehsil Ladwa, District Kurukshetra Bounded As: E
	AND TAKEN A Solar Is have been with a County for the same difference in the solar	3.	(Loan Account No. LNMEKK		08/05/2025	All that Piece and Parcel of F			65' and Street, West: 65', Street and Plot of Avtar Singh, North: 50' and house of Gulab Singh, South:- 43' and way.
14. (a) Relevant forms and	(a) Web Link: https://www.ibbl.dov.in/home/downloads1		80400005866930 (New) (I		Rs. 28,86,750 (As on	area admeasuring 105 sq.			30. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Vishal Kumar Kori, Mrs. Neha Rani Both At: Hn 151A Gali No 3a, Old Arya Nagar, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Inc. 201001 A/c No. DL/DEL/DWND/A000000887 NPA Date: 05-12-2024 Demand Notice Date : 17-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 2232309/- as on 17-02-2022
 (a) Relevant forms and (b) Details of authorized representatives 	(a) Web Link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (b) Not Applicable		Description Mar. Date: (Description)	HOFT MING - MOMING - M	185.00	admeasuring 0.00878 hector	OUT OF GRIEBING, 69, SILL		
	(b) Not Applicable		Branch) Mr. Rohit (Borrow	erj mis, navna n	A 1998 A 1998 Polity do 1999 A				interest + Legal Charges Details of Immovable Property: 2nd Floor (RHS) area measuring 479 sqft Built Upon Plot No. B-181 area measuring 145.53 sqyds par
 (b) Details of authorized representatives are available at: 			Branch) Mr. Rohit (Borrow (Co-Borrower),	erj mis. Navita N	07/05/2025)	Habibpur, Pargana Dadri, Te	shsil & Distt. Gautam Bu	udh Nagar, Uttar	Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Ro
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpor-	(b) Not Applicable			enj milo, narna n	A 1998 A 1998 Polity do 1999 A	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A	shsil & Distt. Gautam Bu s: East By: Rasta & ft. V	udh Nagar, Uttar West By: Plot of	Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Ro 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide.
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa	(b) Not Applicable I Company Law Tribunal, Division Bench – VI, New Delhi		(Co-Borrower),	its.	07/05/2025)	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren	whsil & Distt. Gautam Bu is: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravir	udh Nagar, Uttar West By: Plot of Inder	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Ro 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur, Near Stone Bhatti, Sec 63 Noida, Uttar Pradesh, India - 2013: A/c No. DL/DLS/DLSD/A000000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date: 18-04-2025, Amount Outstanding: Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpor Private Limited on 09th May 2025. The creditors of Shriya Overseas Private Lim	(b) Not Applicable I Company Law Tribunal, Division Bench – VI, New Delhi rate insolvency resolution process of Shriya Overseas nited, are hereby called upon to submit their claims with	4,	(Co-Borrower), (Loan Account No. LNMEAZ	2D000035538 (Old)	07/05/2025) 08/05/2025	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren All Piece and Parcel of the proj	shsil & Distt. Gautam Bu Is: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravin perty bearing No. 130/2, Ar	udh Nagar, Uttar West By: Plot of inder rea Admeasuring	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Ro 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur, Near Stone Bhatti, Sec 63 Noida, Uttar Pradesh, India - 2013; A/c No. DL/DLS/DLSD/A000000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date: 18-04-2025, Amount Outstanding: Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest Legal Charges Details of Immovable Property: A Residential Plot No.60, Area Measuring 133.09 Sg. Yds. Le. 111.28 Sg. Mtrs Khasra No.96/1 Mi, Situated At Unio
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpore Private Limited on 09th May 2025. The creditors of Shriya Overseas Private Lim proof on or before 28.05.2025 to the interim reso	(b) Not Applicable I Company Law Tribunal, Division Bench – VI, New Delhi rate insolvency resolution process of Shriya Overseas	4,	(Co-Borrower), (Loan Account No. LNMEAZ 80400005503110 (New) (DEL	2D000035538 (Old) .HI Branch) M/s.	07/05/2025) 08/05/2025 Rs. 22,32,729	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren All Piece and Parcel of the proj 43.47 Sq Mts i.e. 52 Sq Yds, or	shsil & Distt. Gautam Bu s: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravin perty bearing No. 130/2, Ar ut of Rect. No. 12, Killa No.	udh Nagar, Uitar West By: Plot of inder rea Admeasuring .27/2, Third Floor	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Ro 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur, Near Stone Bhatti, Sec 63 Noida, Uttar Pradesh, India - 2013: A/c No. DL/DLS/DLSD/A000000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date: 18-04-2025, Amount Outstanding: Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpor Private Limited on 09th May 2025. The creditors of Shriya Overseas Private Lim	(b) Not Applicable I Company Law Tribunal, Division Bench – VI, New Delhi rate insolvency resolution process of Shriya Overseas nited, are hereby called upon to submit their claims with	4.	(Co-Borrower), (Loan Account No. LNMEAZ 80400005503110 (New) (DEL Sanchit Tiles and Sanitat	2D000035538 (Old) HI Branch) M/s. tion Through its	07/05/2025) 08/05/2025 Rs. 22,32,729 (As on	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren All Piece and Parcel of the proj 43.47 Sq Mts i.e. 52 Sq Yds, or with roof right upto the last stor	shsil & Distt. Gautam Bu s: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravin perty bearing No. 130/2, Ar ut of Rect. No. 12, Killa No. rey. situated in the Abadi of	udh Nagar, Uitar West By: Plot of inder rea Admeasuring .27/2, Third Floor f Chandu Park, in	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Rod 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN: Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur, Near Stone Bhatti, Sec 63 Noida, Uttar Pradesh, India - 2013; A/c No. DL/DLS/DLS/D/A00000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date: 18-04-2025, Amount Outstanding: Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest Legal Charges Details of Immovable Property: A Residential Plot No.60, Area Measuring 133.09 Sq. Yds, I.e, 111.28 Sq. Mtrs Khasra No.96/1 Mi, Situated At Unice Residence, Village-akbarpur Bherampur, Pargana-Ioni, Teshil And Dist- Ghaziabad (u.p) Bounded As: East: Plot No. 59, West: Plot No. 61, North: - Rasta 30 Ft. Wi South:- Old Awadi 32. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 2013; Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 2013; Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 2013; Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 2014, Mathematical States - 2014, Mathema
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpore Private Limited on 09th May 2025 . The creditors of Shriya Overseas Private Lim proof on or before 28.05.2025 to the interim reso No. 10. The financial creditors shall submit their claims v	(b) Not Applicable al Company Law Tribunal, Division Bench – VI, New Delhi rate insolvency resolution process of Shriya Overseas nited, are hereby called upon to submit their claims with slution professional at the address mentioned against entry with proof by electronic means only. All other creditors may	4.	(Co-Borrower), (Loan Account No. LNMEAZ 80400005503110 (New) (DEL Sanchit Tiles and Sanitat Proprietor (Borrower) Mr. D	2D000035538 (Old) HI Branch) M/s. tion Through its	07/05/2025) 08/05/2025 Rs. 22,32,729	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren All Piece and Parcel of the proj 43.47 Sq Mts i.e. 52 Sq Yds, or with roof right upto the last stor the area of Village Khureji Kh	shsil & Distt. Gautam Bu s: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravin perty bearing No. 130/2, Ar ut of Rect. No. 12, Killa No. rey. situated in the Abadi of has, Illaga Shahdara East	oth Nagar, Uitar West By: Plot of Inder rea Admeasuring .27/2, Third Floor f Chandu Park, in t Delhi - 110051.	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Roc 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur , Near Stone Bhatti , Sec 63 Noida , Uttar Pradesh , India - 2013 A/c No. DL/DLSD/A000000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest Legal Charges Details of Immovable Property: A Residential Plot No.60, Area Measuring 133.09 Sq. Yds, I.e, 111.28 Sq. Mtrs Khasra No.96/1 Mi, Situated At Unic Residence, Village-akbarpur Bherampur, Pargana-Ioni, Teshil And Dist- Ghaziabad (u.p) Bounded As: East: Plot No. 59, West: Plot No. 61, North: - Rasta 30 Ft. Wi South:- Old Awadi Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ind 201010 L A/c No. DL //RE/KRBH/4000000761 L NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Deman
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpor Private Limited on 09th May 2025. The creditors of Shriya Overseas Private Lim proof on or before 28.05.2025 to the interim reso No. 10.	(b) Not Applicable al Company Law Tribunal, Division Bench – VI, New Delhi rate insolvency resolution process of Shriya Overseas nited, are hereby called upon to submit their claims with slution professional at the address mentioned against entry with proof by electronic means only. All other creditors may	4.	(Co-Borrower), (Loan Account No. LNMEAZ 80400005503110 (New) (DEL Sanchit Tiles and Sanitat	2D000035538 (Old) HI Branch) M/s. tion Through its	07/05/2025) 08/05/2025 Rs. 22,32,729 (As on	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren All Piece and Parcel of the proj 43.47 Sq Mts i.e. 52 Sq Yds, or with roof right upto the last stor	shsil & Distt. Gautam Bu s: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravin perty bearing No. 130/2, Ar ut of Rect. No. 12, Killa No. rey, situated in the Abadi of vas, Illaga Shahdara East Plot, West : Gali 15 Ft. W	oth Nagar, Uitar West By: Plot of Inder rea Admeasuring .27/2, Third Floor f Chandu Park, in t Delhi - 110051.	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Roc 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur , Near Stone Bhatti , Sec 63 Noida , Uttar Pradesh , India - 2013 A/c No. DL/DLSD/A000000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest Legal Charges Details of Immovable Property: A Residential Plot No.60, Area Measuring 133.09 Sq. Yds, I.e, 111.28 Sq. Mtrs Khasra No.96/1 Mi, Situated At Unic Residence, Village-akbarpur Bherampur, Pargana-Ioni, Teshil And Dist- Ghaziabad (u.p) Bounded As: East: Plot No. 59, West: Plot No. 61, North: - Rasta 30 Ft. Wi South:- Old Awadi Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ind 201010 L A/c No. DL //RE/KRBH/4000000761 L NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025 Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2025 Deman
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpor Private Limited on 09th May 2025 . The creditors of Shriya Overseas Private Lim proof on or before 28.05.2025 to the interim reso No. 10. The financial creditors shall submit their claims v	(b) Not Applicable al Company Law Tribunal, Division Bench – VI, New Delhi rate insolvency resolution process of Shriya Overseas inited, are hereby called upon to submit their claims with submit heir claims with submit proof by electronic means only. All other creditors may r by electronic means. claim shall attract penalties.	4.	(Co-Borrower), (Loan Account No. LNMEAZ 80400005503110 (New) (DEL Sanchit Tiles and Sanitat Proprietor (Borrower) Mr. D Mrs.Sarita A (Co-Borrower),	2D000035538 (Old) HI Branch) M/s. tion Through its harmendra Singh,	07/05/2025) 08/05/2025 Rs. 22,32,729 (As on 07/05/2025)	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren All Piece and Parcel of the proj 43.47 Sq Mts i.e. 52 Sq Yds, or with roof right upto the last stor the area of Village Khureji Kh Boundaries As; East : Others No. 133A, South : Property of C	shsil & Distt. Gautam Bu as: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravin perty bearing No. 130/2, Ar ut of Rect. No. 12, Killa No. rey. situated in the Abadi of has, Illaqa Shahdara East Plot, West : Gali 15 Ft. W Others	udh Nagar, Uitar West By: Plot of Inder rea Admeasuring 27/2, Third Floor (Chandu Park, in t Delhi - 110051, Vide., North : Plot	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Ro 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur , Near Stone Bhatti , Sec 63 Noida , Uttar Pradesh , India - 2013 A/c No. DL/DLS/DLSD/A00000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest Legal Charges Details of Immovable Property: A Residential Plot No.60, Area Measuring 133.09 Sq. Yds, I.e, 111.28 Sq. Mtrs Khasra No.96/1 Mi, Situated At Unio Residence, Village-akbarpur Bherampur, Pargana-Ioni, Teshil And Dist- Ghaziabad (u.p) Bounded As: East: Plot No. 59, West: Plot No. 61, North: - Rasta 30 Ft. Wi South:- Old Awadi Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ind 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A00000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-202 interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C, Third Floor (without Roof Rights), EWS, area 28.56 sq. meters, Situated Residential Colony, Sector-1, Kamna Vaishali, Tehsil and District-Ghaziabad. UP. Bounded As: East: Bhawan No. 62 C, West: Open on Ground, North: - Bhawan No. 70 South:- Bhawan No. 72 C
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpore Private Limited on 09th May 2025. The creditors of Shriya Overseas Private Lim proof on or before 28.05.2025 to the interim reso No. 10. The financial creditors shall submit their claims v submit the claims with proof in person, by post or	(b) Not Applicable al Company Law Tribunal, Division Bench – VI, New Delhi rate insolvency resolution process of Shriya Overseas inited, are hereby called upon to submit their claims with solution professional at the address mentioned against entry with proof by electronic means only. All other creditors may r by electronic means. claim shall attract penalties. Sd/-		(Co-Borrower), (Loan Account No. LNMEAZ 80400005503110 (New) (DEL Sanchit Tiles and Sanitat Proprietor (Borrower) Mr. D Mrs.Sarita A (Co-Borrower), re said Borrowers shall fail to make	2D000035538 (Old) HI Branch) M/s. tion Through its harmendra Singh, e payment to CGCL as	07/05/2025) 08/05/2025 Rs. 22,32,729 (As on 07/05/2025) saforesaid, CGCL s	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren All Piece and Parcel of the proj 43.47 Sq Mts i.e. 52 Sq Yds, or with roof right upto the last stor the area of Village Khureji Kh Boundaries As: East : Others No. 133 A, South : Property of hall proceed against the above se	shsil & Distt. Gautam Bu as: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravin perty bearing No. 130/2, Ar ut of Rect. No. 12, Killa No. rey. situated in the Abadi of has, Illaga Shahdara East Plot, West : Gali 15 Ft. W Others ecured assets under Sectio	oth Nagar, Uitar West By: Plot of inder rea Admeasuring .27/2, Third Floor (Chandu Park, in t Delhi - 110051, Vide., North : Plot on 13(4) of the Act	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Roc 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur , Near Stone Bhatti , Sec 63 Noida , Uttar Pradesh , India - 2013; A/c No. DL/DLS/DLS/DLSD/A000000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest Legal Charges Details of Immovable Property: A Residential Plot No.60, Area Measuring 133.09 Sq. Yds, I.e, 111.28 Sq. Mtrs Khasra No.96/1 Mi, Situated At Unic Residence, Village-akbarpur Bherampur, Pargana-Ioni, Teshil And Dist- Ghaziabad (u.p) Bounded As: East: Plot No. 59, West: Plot No. 61, North: - Rasta 30 Ft. Wi South:- Old Awadi Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ind 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A00000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2022 interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C, Third Floor (without Roof Rights), EWS, area 28.56 sq. meters, Situated Residential Colony, Sector-1, Kamna Vaishali, Tehsil and District-Ghaziabad. UP. Bounded As: East: Bhawan No. 62 C, West: Open on Ground, North: - Bhawan No. 70 South:- Bhawan No. 72C
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpore Private Limited on 09th May 2025. The creditors of Shriya Overseas Private Lim proof on or before 28.05.2025 to the interim reso No. 10. The financial creditors shall submit their claims v submit the claims with proof in person, by post or Submission of false or misleading proofs of o	(b) Not Applicable al Company Law Tribunal, Division Bench – VI, New Delhi ate insolvency resolution process of Shriya Overseas nited, are hereby called upon to submit their claims with solution professional at the address mentioned against entry with proof by electronic means only. All other creditors may r by electronic means. claim shall attract penalties. Sd/- Sourabh Malpani	an	(Co-Borrower), (Loan Account No. LNMEAZ 80400005503110 (New) (DEL Sanchit Tiles and Sanitat Proprietor (Borrower) Mr. D Mrs.Sarita A (Co-Borrower), he said Borrowers shall fail to make the applicable Rules, entirely at the	2D000035538 (Old) HI Branch) M/s. tion Through its harmendra Singh, e payment to CGCL as he risks of the said Bo	07/05/2025) 08/05/2025 Rs. 22,32,729 (As on 07/05/2025) saforesaid, CGCL s	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren All Piece and Parcel of the proj 43.47 Sq Mts i.e. 52 Sq Yds, or with roof right upto the last stor the area of Village Khureji Kh Boundaries As: East : Others No. 133 A, South : Property of A hall proceed against the above se sts and consequences. The said	shsil & Distt. Gautam Bu as: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravir perty bearing No. 130/2, Ar ut of Rect. No. 12, Killa No. rey. situated in the Abadi of tas, Illaga Shahdara East Plot, West : Gali 15 Ft. W Others ecured assets under Sectio Borrowers are prohibited u	udh Nagar, Uitar West By: Plot of inder rea Admeasuring 27/2, Third Floor (Chandu Park, in t Delhi - 110051, Vide., North : Plot on 13(4) of the Act under the Act from	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Ro 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN: Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur, Near Stone Bhatti, Sec 63 Noida, Uttar Pradesh, India - 2013; A/c No. DL/DLS/DLSD/A00000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest Legal Charges Details of Immovable Property: A Residential Plot No.60, Area Measuring 133.09 Sq. Yds, I.e, 111.28 Sq. Mtrs Khasra No.61/ Mi, Situated At Unice Residence, Village-akbarpur Bherampur, Pargana-Ioni, Teshil And Dist- Ghaziabad (u.p) Bounded As: East: Plot No. 59, West: Plot No. 61, North: - Rasta 30 Ft. Wi South:- Old Awadi Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ind 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A000000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2022 interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C, Third Floor (without Roof Rights), EWS, area 28.56 sq. meters, Situated Residential Colony, Sector-1, Kamna Vaishali, Tehsil and District-Ghaziabad. UP. Bounded As: East: Bhawan No. 62 C, West: Open on Ground, North: - Bhawan No. 70 South:- Bhawan No. 72 C The above mentioned Borrowers/ Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balar outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESIAct.
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpore Private Limited on 09th May 2025. The creditors of Shriya Overseas Private Lim proof on or before 28.05.2025 to the interim reso No. 10. The financial creditors shall submit their claims v submit the claims with proof in person, by post or Submission of false or misleading proofs of o Interim Resolution	(b) Not Applicable a Company Law Tribunal, Division Bench – VI, New Delhi rate insolvency resolution process of Shriya Overseas inited, are hereby called upon to submit their claims with subtion professional at the address mentioned against entry with proof by electronic means only. All other creditors may r by electronic means. claim shall attract penalties. Sd/- Sourabh Malpani n Professional for Shriya Overseas Private Limited	an tra co	(Co-Borrower), (Loan Account No. LNMEAZ 80400005503110 (New) (DEL Sanchit Tiles and Sanitat Proprietor (Borrower) Mr. D Mrs.Sarita A (Co-Borrower), he said Borrowers shall fail to make d the applicable Rules, entirely at to insferring the aforesaid assets, when intravention of the provisions of the s	2D000035538 (Old) HI Branch) M/s. tion Through its harmendra Singh, e payment to CGCL as he risks of the said Bo ether by way of sale, le	07/05/2025) 08/05/2025 Rs. 22,32,729 (As on 07/05/2025) saforesaid, CGCL s mowers as to the co ase or otherwise wit	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren All Piece and Parcel of the proj 43.47 Sq Mts i.e. 52 Sq Yds, or with roof right upto the last stor the area of Village Khureji Kh Boundaries As: East : Others No. 133 A, South : Property of K hall proceed against the above se sts and consequences. The said hout the prior written consent of C	shiil & Distt. Gautam Bu as: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravir perty bearing No. 130/2, Ar ut of Rect. No. 12, Killa No. rey. situated in the Abadi of tas, Illaqa Shahdara East Plot, West : Gali 15 Ft. W Others ecured assets under Sectio Borrowars are prohibited un 2GCL. Any person who cont analty as provided under the	uch Nagar, Uitar West By: Plot of inder rea Admeasuring 27/2, Third Floor (Chandu Park, in t Delhi - 110051, Vide., North : Plot on 13(4) of the Act under the Act from stravenes or abets aAct.	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Roc 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur , Near Stone Bhatti , Sec 63 Noida , Uttar Pradesh , India - 2013; A/c No. DL/DLS/DLS/DLSD/A000000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest Legal Charges Details of Immovable Property: A Residential Plot No.60, Area Measuring 133.09 Sq. Yds, I.e, 111.28 Sq. Mtrs Khasra No.96/1 Mi, Situated At Unic Residence, Village-akbarpur Bherampur, Pargana-Ioni, Teshil And Dist- Ghaziabad (u.p) Bounded As: East: Plot No. 59, West: Plot No. 61, North: - Rasta 30 Ft. Wi South:- Old Awadi Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ind 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A00000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2022 interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C, Third Floor (without Roof Rights), EWS, area 28.56 sq. meters, Situated Residential Colony, Sector-1, Kamna Vaishali, Tehsil and District-Ghaziabad. UP. Bounded As: East: Bhawan No. 62 C, West: Open on Ground, North: - Bhawan No. 70 South:- Bhawan No. 72C
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpore Private Limited on 09th May 2025. The creditors of Shriya Overseas Private Lim proof on or before 28.05.2025 to the interim reso No. 10. The financial creditors shall submit their claims v submit the claims with proof in person, by post or Submission of false or misleading proofs of o Interim Resolution Date : 16.05.2025	(b) Not Applicable a Company Law Tribunal, Division Bench - VI, New Delhi rate insolvency resolution process of Shriya Overseas inited, are hereby called upon to submit their claims with subtion professional at the address mentioned against entry with proof by electronic means only. All other creditors may r by electronic means. claim shall attract penalties. Sd/- Sourabh Malpani n Professional for Shriya Overseas Private Limited egn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01265/2018-2019/12047	an tra coi Pli	(Co-Borrower), (Loan Account No. LNMEAZ 80400005503110 (New) (DEL Sanchit Tiles and Sanitat Proprietor (Borrower) Mr. D Mrs.Sarita A (Co-Borrower), he said Borrowers shall fail to make d the applicable Rules, entirely at to insferring the aforesaid assets, whe intravention of the provisions of the sace : Delhi/NCR	2D000035538 (Old) HI Branch) M/s. tion Through its harmendra Singh, e payment to CGCL as he risks of the said Bo ether by way of sale, le	07/05/2025) 08/05/2025 Rs. 22,32,729 (As on 07/05/2025) saforesaid, CGCL s mowers as to the co ase or otherwise wit	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren All Piece and Parcel of the proj 43.47 Sq Mts i.e. 52 Sq Yds, or with roof right upto the last stor the area of Village Khureji Kh Boundaries As: East : Others No. 133 A, South : Property of K hall proceed against the above se sts and consequences. The said hout the prior written consent of C lable for imprisonment and/or pe	shsil & DistL Gautam Bu as: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravir perty bearing No. 130/2, Ar ut of Rect. No. 12, Killa No. rey. situated in the Abadi of tas, Illaqa Shahdara East Plot, West : Gali 15 Ft. W Others ecured assets under Sectio Borrowars are prohibited un 2GCL. Any person who cont analty as provided under the Sd/- (Autt	uch Nagar, Uitar West By: Plot of inder rea Admeasuring 27/2, Third Floor (Chandu Park, in t Delhi - 110051, Vide., North : Plot on 13(4) of the Act under the Act from stravenes or abets eAct. thorised Officer)	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Ro 24ft, West: Plot No. B-180, North: - Plot No. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN: Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur, Near Stone Bhatti, Sec 63 Noida, Uttar Pradesh, India - 2013; A/c No. DL/DLS/DLSD/A00000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest Legal Charges Details of Immovable Property: A Residential Plot No.60, Area Measuring 133.09 Sq. Yds, I.e, 111.28 Sq. Mtrs Khasra No.61/ Mi, Situated At Unice Residence, Village-akbarpur Bherampur, Pargana-Ioni, Teshil And Dist- Ghaziabad (u.p) Bounded As: East: Plot No. 59, West: Plot No. 61, North: - Rasta 30 Ft. Wi South:- Old Awadi Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ind 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A000000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2022 interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C, Third Floor (without Roof Rights), EWS, area 28.56 sq. meters, Situated Residential Colony, Sector-1, Kamna Vaishali, Tehsil and District-Ghaziabad. UP. Bounded As: East: Bhawan No. 62 C, West: Open on Ground, North: - Bhawan No. 70 South:- Bhawan No. 72 C The above mentioned Borrowers/ Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balar outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESIAct.
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpore Private Limited on 09th May 2025. The creditors of Shriya Overseas Private Lim proof on or before 28.05.2025 to the interim reso No. 10. The financial creditors shall submit their claims v submit the claims with proof in person, by post or Submission of false or misleading proofs of o Interim Resolution Date : 16.05.2025	(b) Not Applicable a Company Law Tribunal, Division Bench – VI, New Delhi rate insolvency resolution process of Shriya Overseas inited, are hereby called upon to submit their claims with subtion professional at the address mentioned against entry with proof by electronic means only. All other creditors may r by electronic means. claim shall attract penalties. Sd/- Sourabh Malpani n Professional for Shriya Overseas Private Limited	an tra coi Pli	(Co-Borrower), (Loan Account No. LNMEAZ 80400005503110 (New) (DEL Sanchit Tiles and Sanitat Proprietor (Borrower) Mr. D Mrs.Sarita A (Co-Borrower), he said Borrowers shall fail to make d the applicable Rules, entirely at to insferring the aforesaid assets, when intravention of the provisions of the s	2D000035538 (Old) HI Branch) M/s. tion Through its harmendra Singh, e payment to CGCL as he risks of the said Bo ether by way of sale, le	07/05/2025) 08/05/2025 Rs. 22,32,729 (As on 07/05/2025) saforesaid, CGCL s mowers as to the co ase or otherwise wit the reunder, shall be	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren All Piece and Parcel of the proj 43.47 Sq Mts i.e. 52 Sq Yds, on with roof right upto the last stor the area of Village Khureji Kh Boundaries As; East : Others No. 133A, South : Property of K hall proceed against the above se sts and consequences. The said hout the prior written consent of C liable for imprisonment and/or pe	shiil & Distt. Gautam Bu as: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravir perty bearing No. 130/2, Ar ut of Rect. No. 12, Killa No. rey. situated in the Abadi of ras, Illaga Shahdara East Plot, West : Gali 15 Ft. W Others ecured assets under Sectio Borrowars are prohibited un 2GCL. Any person who cont analty as provided under the Sd/- (Autt For Capri Global Capital I	uch Nagar, Uitar West By: Plot of inder rea Admeasuring .27/2, Third Floor f Chandu Park, in t Delhi - 110051. Vide., North : Plot on 13(4) of the Act under the Act from travenes or abets aAct. thorised Officer) Limited (CGCL)	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Ro 24ft, West: PlotNo. B-180, North: - PlotNo. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur, Near Stone Bhatti, Sec 63 Noida, Uttar Pradesh, India - 2013 A/c No. DL/DLS/DLSD/A000000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest Legal Charges Details of Immovable Property: A Residential Plot No.60, Area Measuring 133.09 Sq. Yds, I.e, 111.28 Sq. Mtrs Khasra No.96/1 Mi, Situated At Unix Residence, Village-akbarpur Bherampur, Pargana-Ioni, Teshil And Dist- Ghaziabad (u.p) Bounded As: East: Plot No. 59, West: Plot No. 61, North: - Rasta 30 Ft. Wis South:- Old Awadi Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ind 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A00000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2026 interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C, Third Floor (without Roof Rights), EWS, area 28.56 sq. meters, Situate Colony, Sector-1, Kamna Vaishali, Tehsil and District-Ghaziabad. UP. Bounded As: East: Bhawan No. 62 C, West: Open on Ground, North: - Bhawan No. 70 South:- Bhawan No. 72 C The above mentioned Borrowers/ Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balar outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESIAct. Date: 16.05.2025, Place: Ghaziabad
(b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble Nationa has ordered the commencement of a corpore Private Limited on 09th May 2025. The creditors of Shriya Overseas Private Lim proof on or before 28.05.2025 to the interim reso No. 10. The financial creditors shall submit their claims v submit the claims with proof in person, by post or Submission of false or misleading proofs of o Interim Resolution Date : 16.05.2025	(b) Not Applicable a Company Law Tribunal, Division Bench - VI, New Delhi rate insolvency resolution process of Shriya Overseas inited, are hereby called upon to submit their claims with subtion professional at the address mentioned against entry with proof by electronic means only. All other creditors may r by electronic means. claim shall attract penalties. Sd/- Sourabh Malpani n Professional for Shriya Overseas Private Limited egn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01265/2018-2019/12047	an tra coi Plu Da	(Co-Borrower), (Loan Account No. LNMEAZ 80400005503110 (New) (DEL Sanchit Tiles and Sanitat Proprietor (Borrower) Mr. D Mrs.Sarita A (Co-Borrower), he said Borrowers shall fail to make d the applicable Rules, entirely at to insferring the aforesaid assets, whe intravention of the provisions of the sace : Delhi/NCR	2D000035538 (Old) HI Branch) M/s. tion Through its harmendra Singh, e payment to CGCL as he risks of the said Bo ether by way of sale, le	07/05/2025) 08/05/2025 Rs. 22,32,729 (As on 07/05/2025) saforesaid, CGCL s mowers as to the co ase or otherwise wit the reunder, shall be	Habibpur, Pargana Dadri, Te Pradesh-201306. Bounded A Rajmal, North By: Plot of Viren All Piece and Parcel of the proj 43.47 Sq Mts i.e. 52 Sq Yds, or with roof right upto the last stor the area of Village Khureji Kh Boundaries As: East : Others No. 133 A, South : Property of K hall proceed against the above se sts and consequences. The said hout the prior written consent of C lable for imprisonment and/or pe	shiil & Distt. Gautam Bu as: East By: Rasta & ft. V der, South By: Plot Of Ravir perty bearing No. 130/2, Ar ut of Rect. No. 12, Killa No. rey. situated in the Abadi of ras, Illaga Shahdara East Plot, West : Gali 15 Ft. W Others ecured assets under Sectio Borrowars are prohibited un 2GCL. Any person who cont analty as provided under the Sd/- (Autt For Capri Global Capital I	uch Nagar, Uitar West By: Plot of inder rea Admeasuring .27/2, Third Floor f Chandu Park, in t Delhi - 110051. Vide., North : Plot on 13(4) of the Act under the Act from travenes or abets aAct. thorised Officer) Limited (CGCL)	 Khasra No. 1336 situated at Village Dundaheda Colony Known as Panchwati Colony Paragana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Ro 24ft, West: PlotNo. B-180, North: - PlotNo. B-181A, South:- Road 24ft Wide. Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Km Laxmi, Mr. Adesh Pal Both At: Akbarpur Bherampur, Near Stone Bhatti, Sec 63 Noida, Uttar Pradesh, India - 2013 A/c No. DL/DLS/DLSD/A000000768 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1768539/- as on 18-04-2025 + interest Legal Charges Details of Immovable Property: A Residential Plot No.60, Area Measuring 133.09 Sq. Yds, I.e, 111.28 Sq. Mtrs Khasra No.96/1 Mi, Situated At Unix Residence, Village-akbarpur Bherampur, Pargana-Ioni, Teshil And Dist- Ghaziabad (u.p) Bounded As: East: Plot No. 59, West: Plot No. 61, North: - Rasta 30 Ft. Wis South:- Old Awadi Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Ms. Shalini Sharma, Mrs. Usha Sharma Both At: 71C, Sector-1, Kamna, Vaishali, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ind 201010 A/c No. DL/KRB/KRBH/A00000761 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 586346/- as on 18-02-2026 interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Bhawan No. 1/71 C, Third Floor (without Roof Rights), EWS, area 28.56 sq. meters, Situate Colony, Sector-1, Kamna Vaishali, Tehsil and District-Ghaziabad. UP. Bounded As: East: Bhawan No. 62 C, West: Open on Ground, North: - Bhawan No. 70 South:- Bhawan No. 72 C The above mentioned Borrowers/ Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balar outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESIAct. Date: 16.05.2025, Place: Ghaziabad

	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Akash Deep, Mr. Kamlesh Kamlesh, Both At: H No.G-28, Type 4, 5, Dilshad Garden, Shahdara, East Delhi-110032, Shahdara, Metro, Delhi, Delhi, India - 110032 A/c No.DL/SDR/SDRA/A000000883 NPA Date: 05-12-2024 Demand Notice Date: 17-02-2025, Amount Outstanding: Rs. 2348455/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Plot No. 148 area measuring 50 sqyds part of Khasra No. 1560 situated at Village Pasonda Colony Known as Vikram Enclave, Pargana Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Others, West: Rasta 30 ft. wide, North: House of Arif, South: Plotofothers.
	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Amrit Pal Singh, Mrs. Priyanka Kaur, Both At: Plot No.185 GF-1st, Shakti Khand 2nd Indirapuram GZB UP, Shakti Khand 2nd Indirapuram GZB UP, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201010 A/c No. DL/BPR/ASHO/A000000079 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 5014929/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Second Floor (LHS-Back Side) HIG Flat No. B-2 area Measuring 1300 Sq. Fts. build up on Residential Plot No. Gyan Khand-I/15, area measuring 435.12 Sq. Mtrs., Situated at Residential Colony Indirapuram, Ghaziabad, Tehsil & Distt. Ghaziabad U.P. Bounded As: East: Plot no. 16, West: Road 150 ft. wide, North: Plot no. 30, South: Flat No. B-1 Entry/Stairs/Flat No. B-4
	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Anand Verma, Mrs. Jyoti Srivastav, Both At: Plot No 261, Plot No 261 Sec 4 Near Ramprastha Vaishali GZB, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201019 A/c No. GZ/GNR/GNRN/A000000361 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 3812678/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. UGF-6, Upper Ground Floor Front Side Rhs Corner Flat, Area Measuring 81.61 Sq. Meters, i.e. 100 Sq. Yards, i.e. 900 Sq. Ft.total Land Area Measuring 0.0650 Hectares i.e., 777 Sq. Yards, Property Bearing Khasra No. 503/3, Situated At Vidhyak Colony, Village Makanpur, Indirapuran, Nearby Apex Royal Castle, Tehsil & Distt. Ghaziabad, U.P. Bounded As: East: Other Building., West: Road 15 Ft. Wide, North: Other Property & Vacant Land, South: Other Property & Vacant Land & way of Other Building.
5.	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Balraj Balraj, Mrs. Sonam Sonam, Both At: Flat No Ug 03 Plot No C 31/32, Sai Upwan Society Yusufpur Chak Saberi, Gautam Buddh Nagar U.p., Metro, Greater Noida, Uttar Pradesh, India - 201009 A/c No. GZ/GNR/GNRN/A000000148 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 1309158/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Flat No. UG-04 on Upper Ground Floor, front side, MIG, without roof rights, covered area measuring 35 sq. yd. built on Plot No. 20, 21, 28 & 29, Part of Khasra No. 76 & 78Min situated at Sudamapuri Colony (Krishna Vatika) in Village Dundahera, Tehsil & Distt. Ghaziabad UP.
6.	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Bhim Singh, Mrs. Sunita Sunita, Both At: E 645 K Piche Free Hold, Sangam Vihar Nandgram Ghaziabad, Sangam Vihar Nandgram Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201001 A/c No. DL/NCU/GHAU/A000003017 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 1446411/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential House No-F-546, EWS on Ground Floor, (without Roof Rights) admeasuring area-19.53 Sq. Mtr. & Covered area-18.63 Sq. Mtr., Situated at Nandnikunj (Nandgram) Tehsil & DistrictGhaziabad (U.P.) Bounded As: East: Road 3.79 Mtr, West: Road 1.80 Mtr, North: House No-F-545, South: House No-F-547.
	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Deepak Kumar Shrivastawa, Mrs. Manju Shrivastwa, Both At: House No 30-A, Shakti Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Ashish Digital Phot Studio, Semiurban, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201014 A/c No. DL/BDP/BDRP/A000001059 NPA Date: 05-11-2024 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 752265/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. SK-I/30A(LIG) (T/S) on 1st Floor area measuring 28.90 sqmt situated at Colony Known as Indrapuram Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Flat No. 29A and Road 25ft Wide, West: Flat No. 19A, North: Flat No. 31A, South: Flat No.27A.
	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Dharmendra Singh Tomer, Mr. Savitri Kumari, Both At: A land Tahsil Dhaulana Ghaziabad, Semiurban, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201001 A/c No. DL/LON/LON/LON/A00000039 NPA Date: 06-01-2025 Demand Notice Date : 17-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 1093477/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: House land area measuring 111.15 sq. yards, i.e. 92.96 sq. meters, out of Khasra no. 264, Situated at Village Galland. Pargana Dasana, Tehsil Dhoulana, District-Hapur UP. Bounded As: East: Plot of other, side 58 ft, 5 inch, West: House of other, side 58 ft, 5 inch, North: Plotofother, side 17 ft, 1 inch, South:- Road 18 ft, wide, side 17 ft, I inch
9.	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Dheeraj Kumar, Meera Meera, Both At: 1/770, Rehman Building, West, Delhi, India - 110032 A/c No. DL/BPR/ASHO/A000000189 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1106584/- as on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. SF-02 Front LHS Second Floor, area measuring 336 sq. ft, i.e. 31.22 sq. meters, built on Plot No. B-159, land area measuring 150 Sq. Yards, i.e. 125.41 Sq. Meters, Part of Khasra No. 211, Situated at Rail Vihar Sehkari Awas Samiti Ltd. Village Sadullabad, ParganaLoni, Tehsil & District Ghaziabad, (U.P.). Bounded as: East: Vacant Plot, West: Flat SF-01, side 58 ft, 5 inch, North: Building Entry/Road 30 feet, South:- Flat Entry/Common Area/Stairs/Flat SF-03
	Name of Borrowers/Guarantors / LAN: Mr. Jeetbahadur Vishwarma, Mrs. Manjinde Kaur, Both At: Rz 250 2nd Floor, Tughlakabad Extension Kalkaji PO, South Dehli, Metro, Delhi, Delhi, India - 110019 A/c No. GR/KAP/KUNJ/A000001045 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date: 24-02-2025, Amount Outstanding: Rs. 4590689/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: A Freehold Residential Flat Bearing No. 06 on 6th Floor, Having Super Area 87 Sq. Mtrs., Situated at Group Housing Complex, Rattan Jyoti, Built-Up Property Bearing Plot No. 20, Sector – 4, Residential Colony Vaishali, Ghaziabad, Tehsil and District Ghaziabad, U.P Bounded As: East: Open/Flat No. 607, West: Cut Out/Corridor/Flat No. 603, North: Corridor/Staircase/Flat No. 605, South:- Flat no. 601
11.	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Jitendra Itavari, Mr. Mamta Jitendra, Both At: Flat No-A-303 Keshav Kunj-10, Plot No-C-77/80, Sec-5, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201005 A/c No. DL/NCU/GHAU/A000001559 NPA Date: 05-12-2024 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 2004569/- as on 17-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Freehold Residential Flat No. A-3 on Second Floor without roof right (front side RHS) admeasuring super area 900 sq. ft. (83.61 sq. mtr.) built on Plot No. 1/22 situated at Sector-5 in Rajendra Nagar Residential Colony Tehsil & Distt. Ghaziabad (U.P.) Bounded As: East: 40 ft. wide road, West: Plot no 14 & 15, North: Plot no. 21, South:- Plot no. 23.
	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Kuldeep Sharma, Mrs. Asha Sharma, Both At: J 15 SF 2 Sector 12, Sector 12 Pratap Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201009 A/c No. DL/BPR/JHAH/A00000252, CO/CPC/CPOF/A000004344 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 2272346/- as on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property:Residential First Floor. Back Side, L.H.S., Flat No. FF-5, area measuring 45 Sq. Mtrs., Built on Plot No. J-15, Situated at Block-J, Sector-12, G.M.P Residential Colony Known as Pratap Vihar, Ghaziabad. Tehsil & Dist. Ghaziabad U.P Bounded As: East: Plot no. J-16, West: Plot no. J-14, North: Park, South:-Road 25 ft. wide
	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Lalit Tyagi, Mrs. Poonam Tyagi, Both At: New Friends Coloni , Gali No 05 Near Lotus School Sanjay Nagar, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201002 A/c No. DL/NCU/GHAU/A000003129 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 1891092/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential House No-485A, admeasuring area-33.40 Sq.Mtr. Situated at Sector-23, Block-N, in Sanjay Nagar, Tehsil & District- Ghaziabad, (U.P.), Bounded As: East: House No-486A, West: House No-482A, North: Road, South:- House No-487A
14.	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Laxmi Kant Laxmi Kant, Mr. Rahul Singh, Mrs. Aparna Kant, All At: Flat No 1205a Tower C, Gardenia Square Crossings Republic GZB, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201016 A/c No. DL/GRN/ALPH/A000000237 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 2005778/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Residential Flat No. 1205-A, on 12Ath Floor, Block- C, super area measuring 1075 Sq. Ft. i.e. 99.87 Sq. Meters, in Group Housing Residential Complex namely "Gardenia Square" GH Plot No. 6, in the township known as "Crossings Republik", situated at VillageDundahera, Ghaziabad, U.P. BoundedAs: East: Open Below, West: Flat No. 1206/A, North: Open Below, South:- Entry
15.	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Manoj Kumar, Mr. Nirmla Manoj Kumar, Both At: H No-107, Gali No-2, Shanti Nagar, Near NH-24, Ghaziabad, Shanti Nagar, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201009 A/c No. DL/KRB/KRBH/A000000391 NPA Date: 05-04-2025 Demand Notice Date : 18-04-2025, Amount Outstanding : Rs. 1452217/- as on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Plot of Land area measuring 75 sq. yds. i.e 62.70 sq. mtrs., comprised of Khasra No. 184/4, situated in the area of Village Dundahera, Pargana-Loni, Tehsil & Distt. Ghaziabad, U.P. Bounded As: East: Plot of Heera Devi, West: Plot of Usha Devi, North: Passage 9 Ft., South:- House of Sovran Singh
	Name of Borrowers/Guarantors / LAN: Mr. Md Yasir Khan, Mrs. Bibi Tarannum, Both At: Plot N 858 Block F Sec 3, Vaishali Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 20101 A/c No. GZ/GNR/GNRN/A000000435 NPA Date: 05-03-2025 Demand Notice Date: 18-04-2025, Amount Outstanding: Rs. 1570013/- as on 18-04-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: A Free-Hold Residential Second Floor, With Roof Rights, Covered Area 30.82 Sq. Mtrs. built on Plot No. IIIF/987, Situated at Sector-3F, Residential Colony Mahagun Mall Vaishali, Tehsil & District Ghaziabad, U.P. Bounded As: East: House No. 988, West: House No. 986, North: Other Property., South:- Road 20 Ft. Wide.
17.	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Mohit Sharma, Mrs. Nupur Sharma, Both At: H No. F-32, Ground Floor, , Krishna Garden Govind Puram Ghaziabad UP-201013, , Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201013 A/c No. DL/SDR/SDRA/A000001102 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 1514671/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat No. SF-2 (Corner Unit) on 2nd Floor without roof rights area measuring 632 sqft Built Upon Plot No. 64 area measuring 190 sqyds part of Khasra No. 1452 situated at Village Raispur Colony Known as Tulsi Vihar Paragna Dasna Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh BoundedAs: East: Road, West: Other unit, North: Road/ Building Entry, South:- Other unit
	Name of Borrowers/Guarantors / LAN: Mr. Mohmmad Rahis, Mrs. Farin Farin, Mrs. Akhatri Begam, AllAt: H No 79 Gali No 1 Boudh Vihar, Near Green Hotel Part 4 Vijay Nagar Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201009 A/c No. DL/DLS//DLSD/A00000453 NPA Date: 06-01-2025 Demand Notice Date : 22-03-2025, Amount Outstanding: Rs. 626735/- as on 22-03-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Property area measuring 50 sqvds part of Khasra No. 49min situated at Village Akbarpur Colony Known as Bodh Vihar Paragna Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Others, West: Property of Raju, North: Others, South:- Road 15ft. wide.
	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Mukesh Mukesh, Mrs. Kranti Devi, Both At: F 285 B Udal Nagar, F 285 B, Udal Nagar Ghaziabad, F 285 B, Udal Nagar Ghaziabad, J Utar Pradesh, India - 201001 A/c No. DL/SHL/SHLM/A000000273 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date : 24-02-2025, Amount Outstanding : Rs. 1999347/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Property area measuring 200 sqyds part of Khasra No. 187A situated at Nangia Firoz Mohanpur Village Ator Paragna Jalalabad Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Road 12ft Wide, West: House of Devender, North: House of Vikas, South:- Gali 8ft Wide
	Name of Borrowers/Guarantors / LAN : Mr. Noor Mohammad, Mrs. Shahbaz Shahbaz, Both At: H Block H N 43 Shaheed Nagar, Sahibabad Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201006 A/c No. DL/DEL/DWND/A00000936 NPA Date: 05-12-2024 Demand Notice Date : 12-03-2025, Amount Outstanding : Rs. 4002158/- as on 07-03-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: PlotNo. H-43 area measuring 75 sqvds part of Khasra No. 542min/1 situated at Village Pasonda Colony Known as Shaheed Nagar Paragna Loni Tehsil and District Ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded As: East: Others, West: Others, North: Gali, South:- Others
	Name of Borrowers/Guarantors / LAN: Mr. Pankaj Garg, Mr. Lata Garg, Mr. Richa Garg, All At: Tower No-12, Flat No-103, First Floor, Tucson City Tdi, Kundli, Sonipat, Haryana-131028, Sonipat, Prakash Dairy, Metro, Sonipat, Haryana, India - 131028 A/c No. DL/JNK/JNKP/A000000144 NPA Date: 06-02-2025 Demand Notice Date: 24-02-2025, Amount Outstanding: Rs. 3441687/- as on 18-02-2025 + interest + Legal Charges Details of Immovable Property: Flat no. T-12/0103, on First Floor, area measuring 1520 sg. ft. in Tower T, project Known as "Tuscan Heights" in Tuscan City at TDI City. Kundli, Sonepat, Haryana.